CIN: L34102UP1988PLC010141 init: L34 1020F1366FLCU 0141 legd. Office: 4- 5, UPSIDC Industrial Estate, Bhartiagram, Gajraula, Distt. Amroha, U.P.-244223 hone: 09837923893, Fax: (05924) 252348, Email id: insilco2@gmail.com, Website: www.insilcoindia.c NOTICE FOR 35TH ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)

#### Notice is hereby given that:

The 35th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be convened on Wednesday, 20t September 2023 at 05:00 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visua

Means ("OAVM") facility in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 201. and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements). Regulations, 2015 read with General Circular Nos.14/2020 dated 8th April 2020, 17/2020 dated 13th April 2020, 20/2020 dated 5th May 2020, 02/2021 dated 13th January 2021, 21/2021 dated 14th December 2021, 02/2022 dated 5th May 2022 and the latest circular No. and 10/2022 dated 28th December 2022 ("MCA Circulars") and The Securities and Exchange Board of India ("SEBI") pursuar to its Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1 /CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020 (the validity of which ha been extended till 31st December 2021 by SEBI, vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January 2021) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/ P/2022/62 dated 13th May 2022 and SEBI/HO/CRD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5th January 2023 ("SEB Circulars"), and any other applicable circulars issued in this regard have permitted the companies t conduct their Annual General Meeting ('AGM') through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visua Means (OAVM), to transact the business set out in the Notice calling the AGM.

- The Annual Report of the Company for the Financial Year 2022-23, including the Notice, Board Report, Auditor's Report, Audited Financial Statements and other required documents for the Financial Year 2022-23, will be sent only by e-mail to those Members of the Company electronically, whose e-mail address is registered with the Company's Registrar and Share Transfe Agent, and whose e-mail are registered with the Company or with their respective Depository
  Participants ("Depository") in accordance with the MCA and SEBI Circulars. The Company shall providing facility to its members to cast their votes remotely, using electronic voting system ("remote e-voting"), for participating in the AGM through VC/OVAM facility and e-voting during the AGM through National Securities Depositories Limited ("NSDL"). The instructions for joining the AGM and the manner of participation in the remote electronic volting or casting vote through the evoling system during the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members participating through the VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companie Act, 2013. The Annual Report, Notice of the AGM and other relevant documents will also be available on the Company's website at www.insilcoindia.com and the website of BSE Limited a www.bseindia.com and on the website of NSDL at https://www.evoting.nsdl.com
- The manner of voting remotely for members holding shares in dematerialized mode, physical mode and members who have not registered their email address is provided in the Notice of the 35th
- Those Members holding shares in physical form, whose email addresses are not registered with the Company, may register their email address by sending scan copy of a signed request lette mentioning your name, folio number, complete address, email address to be registered along wit scanned self-attested copy of the PAN Card and any document (such as Driving Licence, Passpor Bank Statement, AADHAR) supporting the registered address of the Member, by email to the Company's email address at insilco2@gmail.com. Members holding shares in demat form car update their email address with their Depository Participant. If there is any change in the e-mail ID already registered with the Company / RTA, Members are requested to immediately notify such change to the Company at Company's email address at insilico2@gmail.com in respect of share held in physical form and to Depository Participants in respect of shares held in electronic form.
- The Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, a on the **cut-off date i.e. on Wednesday, 13th September 2023** shall be entitled to cast vote by remote e-voting or attend the meeting through VC/OAVM and cast vote at AGM. The remote e Voting shall commence on **Friday, 15th September 2023** at 9:00 am (IST) and end on **Tuesday** 19th September 2023 at 5:00 pm (IST). The remote e-Voting module shall be disabled thereafter Once the vote on a resolution is cast by the member through remote e-voting, it shall not be permitted to change subsequently. The members who have cast their vote by remote e-voting ma also attend AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
- Since the physical attendance of the members has been dispensed with, there is no requirement appointment of proxies. Therefore, the facility of appointment of proxy by the members will not be available for the AGM. However, the body corporates are entitled to appoint authorisec representatives to attend the AGM through VC/OAVM and cast their votes through electronic voting ("e-voting"). Body corporates whose authorised representatives are intending to attend the meetin through VC/OAVM are requested to send to the Company at insilco2@gmail.com, a certified cop of the board resolution authorizing their representative to attend and vote on their behalf at the eeting through e-voting at least 48 hours in advance before the start of the AGM.
- Mr. Ajay Kumar Prajapati, Proprietor of M/s APK & Associates, Practicing Company Secretary, ha been appointed as scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.
- Members who would like to express their views or ask questions during the AGM may registe themselves by sending their request from their registered email address mentioning their name, DI D and Client ID number/folio number and mobile number, to the Company's email address a insilco2@gmail.com at least 48 hours in advance before the start of the AGM.
- Members having any query or seeking any information are requested to write/send email to the Company from their registered email address, mentioning their name, DP ID and Client ID. number/folio number and mobile number, to the Company's email address at insilco2@gmail.com at least 48 hours in advance before the start of the meeting.

his above information is being issued for the information and benefit of all the shareholders of th company in compliance with the applicable circulars of the MCA and SEBI

For Insilco Limite

Date : 21st August 2023 Place : Palwal, Haryana

Geetika Varshne Company Secretary and Compliance Office

HIMADRI CREDIT & FINANCE LIMITED CIN: L65921WB1994PLC062875

Regd. off: 23A, Netaji Subhas Road, 8th Floor, Kolkata - 700 001 E-mail: hcfl@himadri.com; Website: www.himadricredit.in Ph. No.: (033) 2230-4363/ 9953

Information regarding 28th Annual General Meeting to be held through Video Conferencing / Other Audio-Visual means and Notice of Book Closu

- Notice is hereby given that the 28th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Himadri Credit & Finance I td is scheduled to be held on Tuesday, 19 Septembe 2023 at 11:00 a.m. (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visua Means ("OAVM") in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") read with Circulars No. 14/2020, No. 17/2020, No. 20/2020, No 02/2021 and No. 02/2022 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13. 2021 and May 5. 2022 respectively and General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") without the physical presence of the Members at a common venue. Hence Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The deemed venue for the 28th AGM shall be the Corporate Office of the Company situated at Ruby
- In compliance with the above MCA Circulars and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 issued by SEBI, the soft copies of the Notice of the 28th AGM and the Annual Report of the Company for the financial year ended 31 March 2023 ("Annual Report") will be sent only by email to all those Members, whose email addresses are registered with the Company/ Company's Registrar & Share Transfer Agent (RTA) i.e. M/s S. K. Infosolutions Pvt Ltd or with their respective Depository Participants ("Depository"). The Company will be providing remote e-Voting facility to its members to cast their votes, during the remote e-Voting period, or businesses as set forth in the Notice of AGM. The instructions for joining the 28th AGM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through the e-Voting system during the 28th AGM will be provided in the Notice of the 28" AGM. Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the guorum under Section 103 of the Act. The Notice of the 28th AGM and the Annual Report will also be available on the website of the Company i.e. www.himadricredit.in and also on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) (Agency for providing the Remote e-Voting facility) at
- Members holding shares in physical mode who have not yet registered/updated their email addresses with the Company/ Depository can obtain Notice of the 28th AGM Annual Report and/or login details for joining the 28th AGM through VC/OAVM facility including e-Voting, by sending scanned copy of the following documents by email to hcfl@himadri.com or to Company's Registrar and Share Transfer Agent at
- A signed request letter mentioning your name, folio number and complete address; Self-attested scanned copy of the PAN Card; and
- Self-attested scanned copy of any document (such as AADHAR Card, Driving Licence, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Member as
- Members holding shares in physical mode who have not registered their emai address with the Company are requested to update their PAN, KYC, Nomination details, by submitting the following forms to S K Infosolutions Private Limited, the RTA of the Company at their address at S K Infosolutions Pvt Limited, Unit: Himadr Credit & Finance Ltd, D/42 Katju Nagar (Near South City Mall), Ground Floor, Kolkata- 700032, Phone No. (033) 24120027 & 24120029, E-mail: skcdilip@gmail.com
- Form ISR-1: Request for Registering PAN/KYC, Bank details or Changes/Updation thereof
- Form ISR-2: Confirmation of Signature of Shareholders by the Banker
- Form ISR-3: Declaration to Opt-out of Nomination Form SH-13: Nomination Form
- Form SH-14: Change in Nomination
- Form SH-14 and ISR-3: Cancellation of Nomination
- The above forms can be downloaded from the website of the Company i.e www.himadricredit.in
- Members holding shares in Demat form are requested to update their email address with their Depository
- Pursuant to Section 91 of the Act and Regulation 42 of the SEBI Listing Regulations the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, 13 September 2023 to Tuesday, 19 September 2023 (both

days inclusive) for the purpose of AGM. The above information is being issued for the information and benefit of all the Members o the Company in compliance with the applicable circulars issued by MCA and the SEBI.

For Himadri Credit & Finance Ltd.

Koushik Ranjan Saha Date : 21 August 2023 **Company Secretary** 

#### AGARWAL INDUSTRIAL CORPORATION LIMITED

CIN: L99999MH1995PLC084618 Registered Office: Eastern Court, Unit No. 201-202, Plot No. 12, V.N. Purav Marg, S.T. Road, Chembur, Mumbai – 400071 Phone Nos: +91-22-25291149/50. Fax: +91-22-25291147. Website: <u>www.aicltd.in</u> ; E-mail: <u>contact@aicltd.in</u>

NOTICE OF 29TH ANNUAL GENERAL MEETING (Pursuant to General Circular No. 10/2022 dated 28.12.2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA)

- The 29<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company will be held on Friday, 15<sup>th</sup> September, 2023 at 12:00 Noon through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Video Means (OAVM) in accordance with the MCA General Circular No. 10/2022 dated 28<sup>th</sup> December, 2022 and in accordance with the provisions of Companies Act, 2013 and Rules made thereunder as amended.
- The date of the AGM -Friday, September 15, 2023.
- The Time of the AGM 12.00 Noon through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Video Means (OAVM). The Notice of the AGM will be available on the website of the Company <a href="www.aicltd.in">www.aicltd.in</a>, the website of the recognized Stock Exchange - BSE Limited <a href="https://www.bseindia.com">www.nseindia.com</a> and also disseminated on the website of NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility and e-voting system during the AGM) i.e. <a href="https://www.evoting.nsdl.com/">https://www.evoting.nsdl.com/</a>
- The members who are holding shares in physical form and have not registered their email address with the Company can cast their vote through Remote E-voting or through the E-voting system during the meeting as detailed in the Notice of the AGN
- The members are requested to note that, if you have not registered your email address with the Company/RTA you may follow th below mentioned process for obtaining the login details for e-voting:

Please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to <a href="mailto:cs@aicltd.in/info@unisec.in">cs@aicltd.in/info@unisec.in</a>

For Demat shareholders

Please provide Demat account details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to <a href="mailto:cs@aicltd.in/info@unisec.in">cs@aicltd.in/info@unisec.in</a>

- In view of the circular issued by SEBI, the National Electronic Clearing Services (NECS) facility should mandatorily be used by the companies for the distribution of dividend to its members. In order to avail the facility of NECS, Members holding shares in physical form are requested to provide Bank Account details to the Company or its Registrar and Share Transfer Agents. Members holding shares in electronic form are hereby informed that the Bank particulars registered against their respective Depository Accounts will be used by the Company for payment of dividend, if declared by the members of the Company in the ensuing Annual Genera Meeting (AGM). Any changes in such Bank mandate must be advised only to the Depository Participant of the Members.
- The period of Book Closure shall commence from September 09, 2023 to September 15, 2023 (both days inclusive) for the purposes of payment of Dividend @ 2.50/- per Equity Share of the face value of Rs. 10/- for the FY. 2022-23, if declared by the members of the Company in the ensuing Annual General Meeting (AGM) and for the purposes of E-Voting at the Twenty Ninth AGM to be held on September 15, 2023, Cut -off date for both being Friday, September 08, 2023.
- The remote e-voting shall commence on Tuesday 12th September' 2023 at 9.00 A.M.;
- The remote e-voting shall end on Thursday 14th September' 2023 at 05.00 P.M.;
  - In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual fo Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on.: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre at evoting@nsdl.co.in.

The Company/RTA shall co-ordinate with NSDL and provide the login credentials to the above mentioned shareholders. By Order of the Board of Directo

Date: 21.08.2023

Dipali Pital **Company Secretary** 

aban

#### ABAN OFFSHORE LIMITED

Regd. Office: "Janpriya Crest", 113, Pantheon Road, Egmore, Chennal - 600 008.

Website: www.abanoffshore.com; Tel No.044-49060606; Fax: 044-28195527 CIN:L01119TN1986PLC013473

#### **PUBLIC NOTICE**

Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting("AGM") of the Shareholders of the Company will be held on Monday, the 25th September 2023 at 10.15 A.M. IST through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM").

n view of the situation arising due to the COVID-19 global pandemic, the Annual General Meeting of the Company will be held through Video Conferencing (VC) or other audio visual means (OAVM) as per the guidelines issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide Circular No.14/2020 dated April 8,2020, Circular No.17/2020 dated April 13,2020 Circular No.20/2020 dated May 05,2020 and Circular No.SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated **January 15, 2021.** Hence, Members can attend and participate at the ensuing AGM through VC/OAVM.

Notice of the AGM, together with the Annual Report for the financial year 2022-23, have been sent in electronic form on 21st August 2023, in accordance with the relaxation granted by the Securities and Exchange Board of India vide Circular dated 12th May 2020, to all the shareholders whose names appear on the Register of Members /list of Beneficial Owners as received from National Securities Depository Limited (NSDL)/Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as at the close of business hours on 18th September, 2023 and who have registered their email id with the Company /Depositories Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report 2022-23 will also be available on the Company's website a www.abanoffshore.com, website of National Security Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com, website of BSE imited at www.bseindia.com and website of the National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com respectively. The nstructions for joining the AGM are provided in the Notice. Members attending the Meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

n Compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 the Company has offered electronic voting facility (remote e-voting) for transacting the business through National Securities Depository Limited [NSDL] to enable the members to cast their vote electronically. Additionally, the facility for voting through electronic means shall also be made available at the time of the meeting and Members attending the meeting who nave not already cast their vote by remote e-voting shall be exercise their right at the meeting. Detailed procedures for remote eoting and e-voting at the meeting are provided in the Notice.

Members whose names appear on the Register of Members /Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut Off Date for voting, i.e 18th September 2023, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting /e-voting at the AGM. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member after dispatch of the Notice but before the cut-off date for voting .e. **18th September 2023** may obtain the login Id and password by sending a request to evoting .nsdl.com or contacting our Registrar & Share Transfer Agents viz. Cameo Corporate Services Limited, "Subramanian Buildining", No.1 Club House Road, Chennai 600 002. Phone: +91 044 28460390 (5 lines); Fax:+91 044 28460129; Email: investor@cameoindia.com.

### The remote e-voting commences on Friday the 22nd September 2023 (9.00 A.M) and ends on Sunday, the 24th Septembe

Members will not be able to cast their vote electronically beyond the said date and time (i.e after 5.00 P.M on Sunday 24th September 2023) and the remote e-voting module shall be disabled for voting by NSDL thereafte

M/s. G. Ramachandran & Associates, Practising Company Secretaries Chennai has been appointed as Scrutinizer for the remot e-voting process/voting at the AGM.

The Members who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again. Members whose email addresses are not registered are requested to register their e-mail addresses with the respective depository participants and members holding shares in physical mode are requested to register their e-mail addresses with the Company's Registrar and Share Transfer Agent viz. Cameo Corporate Services Limited by email to investor@cameoindia.com

Any Query/Grievance in relation to voting by electronic means can be addressed to Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg ,Lower Parel,Mumbai 400 013 or send an email to : evoting@nsdl.co.in/pallavid@nsdl.co.in Tel: 9122 24994545/1800-222-990.

(By Order of the Board)

Place : Chennai Date: 21.08.2023

S N Balaji Deputy General Manager (Legal) & Secretary



### **SOLARA ACTIVE PHARMA SCIENCES LIMITED**

CIN: L24230MH2017PLC291636

Registered Office: 201, Devavrata, Sector 17, Vashi, Navi Mumbai, 400 703 Tel: +91 22 27892924; Fax: +91 22 27892942

Corporate Office: Second Floor, Admin Block, No.27 Vandaloor Kelambakkam Road, Keelakottaiyur Village, Melakottaiyur (Post) Chennai 600 127, Tel: + 91 44 47406200; Fax: +91 44 47406190; Email: investors@solara.co.in; Website: www.solara.co.in

### NOTICE OF THE SIXTH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

lotice is hereby given that:

Date : August 22, 2023

The Sixth Annual General Meeting (AGM) of the members of Solara Active Pharma Sciences Limited (the 'Company') will be held or Friday, September 15, 2023 at 9.30 AM (IST) through Video Conferencing ('VC') / Other Audio-Visual Means ('OAVM') to transact the businesses as set out in the Notice.

Pursuant to General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023, issued by SEBI, companies are allowed to hold AGMs through VC, without the physical presence of members at a common venue. Accordingly, the Sixth AGM of the Company is being held through VC / OAVM.

The Notice of the Sixth AGM and the Annual Report FY 2022-23 are also available on the website of the Company https://solara.co.in/investor-relations. The Notice can also be accessed from the websites of Stock Exchanges i.e., BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com). The dispatch of Notice of the AGM through emails has been completed on August 21, 2023.

Register of Members of the Company will remain closed from September 9, 2023 to September 15, 2023 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting. The Company is providing the facility to its members to exercise their right to vote on the businesses as set forth in Notice of the Sixt

AGM by electronic means through both remote e-voting and e-voting at the AGM. All Members are informed that  $1. \ \ Members\ may\ attend\ the\ Sixth\ AGM\ through\ VC/OAVM\ on\ September\ 15,\ 2023,\ at\ 9.30\ AM\ (IST).\ Please\ refer\ instructions\ given the sixth\ AGM\ through\ VC/OAVM\ on\ September\ 15,\ 2023,\ at\ 9.30\ AM\ (IST).$ 

- in the Sixth AGM Notice. 2. Members whose names appear in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositorie
- as on the Cut-off date of September 8, 2023, shall only be entitled to avail the remote e-voting facility or vote, as the case may be at the AGM, CDSL has been engaged the remote e-voting facility and e-voting system during the AGM. 3. Remote e-voting shall start on Tuesday, September 12, 2023, at 9.00 AM (IST) and ends on Thursday, September 14, 2023, at 5.00 PM (IST). Remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 PM (IST) on September 14, 2023, and once the vote on a
- resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. Please refer instructions given in the Sixth AGM Notice 4. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again. Members, who have not cast their vote through remote e-voting and are present in the AGN
- through VC/OAVM, shall be eligible to vote through e-voting at the AGM. 5. Members who have not registered their email address are requested to register the same in respect of shares held in electroni form with the depository through their depository participant and in respect of shares held in physical form with Registrar and Share transfer agent (RTA) by visiting - https://investors.cameoindia.com.
- 6. The Board of Directors appointed M/s. Preetham Hebbar and Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting e-votin process in fair and transparent manner
- 7. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member post-dispatch of the Notice of the AGM and holds shares as on the cut-off date i.e., September 8, 2023, may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. However, if a person is already registered with CDSL for e-voting then the existing user ID and password can be used for casting their vote.

he results of e-voting will be announced by the company within 2 working days from the date of AGM and also be informed to the Stoc

By Order of the Board of Director For Solara Active Pharma Sciences limited S Muralikrishna **Company Secretary** 





#### THE GREAT EASTERN SHIPPING CO. LTD.

Registered Office: Ocean House, 134/A, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400018. Tel No.: +91 (22) 66613000/24922100; Fax: +91 (22) 24925900

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Members are hereby informed that pursuant to Sections 108, 110 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and in compliance with the circulars dated April 08, 2020 and April 13, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and other applicable circulars issued by MCA and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), the approval of the Members is sought by way of Postal Ballot for appointment of Mr. Keki Mistry as an Independent Director of the Company for a term of 5 years w.e.f. August 09, 2023.

The Notice of Postal Ballot has been sent to the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s) by way of email on August 21, 2023. The same is also available at the Company's website: <a href="www.greatship.com">www.greatship.com</a> and on the websites of BSE Limited: <a href="www.bseindia.com">www.bseindia.com</a> and National Stock Exchange of India Limited: <a href="www.nseindia.com">www.nseindia.com</a> and on the website of KFin Technologies Limited: https://evoting.kfintech.com. In accordance with the circulars issued by MCA, physical copies of the Notice, Postal Ballot forms and

pre-paid Business Reply Envelopes are not being sent to Members for this Postal Ballot. The Board of Directors of the Company has appointed Ms. Ashwini Inamdar, failing her, Ms. Alifya

Sapatwala, Partners, Mehta & Mehta, Company Secretaries, as Scrutinizers for conducting the Postal Ballot and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

The Company has also engaged the services of KFin Technologies Limited ("KFin"), Registrar and Share Transfer Agent of the Company, for providing remote e-voting facility to the Members

Members are requested to provide their assent or dissent through remote e-voting only.

Members who are individuals holding shares in demat mode may cast their votes through remote e-voting through the websites of NSDL/CDSL/Depository Participants. Other Members may cast their votes through remote e-voting at https://evoting.kfintech.com.

#### Instructions pertaining to Remote e-voting:

The remote e-voting period commences at 09.00 a.m. on Tuesday, August 22, 2023 and ends at 5.00 p.m. on Wednesday, September 20, 2023. Remote e-voting will not be allowed beyond the said date and time and the remote e-voting will be disabled by KFin upon expiry of the aforesaid period.

A Member's voting rights shall be in proportion to his/her share of the paid-up equity share capital of the Company as on August 16, 2023 ("cut-off date"). A person whose name is recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice for information purposes only.

#### Manner of registering/updating e-mail addresses to receive the Notice of Postal Ballot:

Members whose email IDs are not registered with the Company/Depository Participants and consequently the Notice of Postal Ballot and remote e-voting instructions cannot be serviced, can send an e-mai request at the email id einward.ris@kfintech.com along with scanned copy of the request letter, duly signed, providing their email address, mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio for sending Notice of Postal Ballot and the remote e-voting instructions.

#### Manner of registering/updating KYC details:

SEBI, vide its Circular dated November 03, 2021 (as amended from time to time), has mandated registration of PAN, postal address, email address, mobile number, bank account details, specimen signature and nomination by holders of physical securities. Members holding shares in physical form are requested to submit the necessary details by sending a duly filled and signed Form ISR-1 to the

Members, holding shares in electronic form, are requested to register / update their KYC details with respective Depository Participants.

In case of any queries/grievances, the Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting User Manual available at the 'download' section of https://evoting.kfintech.com or send email to evoting@kfintech.com or call KFin on 1800 309 4001 (toll free).

Members are also requested to note the following contact details for addressing remote e-voting grievances Mr. Anil Dalvi

KFin Technologies Limited

Selenium Tower B, Plot 31-32, Financial District. Nanakramguda, Serilingampally, Gachibowli, Hyderabad - 500 032, Telangana.

Telephone: + 91 - 40 6716 1631

E-mail: einward.ris@kfintech.com

The results of the Postal Ballot will be announced within two working days from conclusion of remote e- voting, i.e. on or before Friday, September 22, 2023 at the Registered Office of the Company. The said results would be displayed at the Registered Office of the Company. The said results would also be intimated to the National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited where the shares of the Company are listed. Additionally, the results will also be uploaded on the Company's websitewww.greatship.com and on the website of KFin Technologies Limited- https://evoting.kfintech.com.

For The Great Eastern Shipping Company Limited

Place: Mumbai 21.08.2023 Date

Dear Members.

Anand Punde Company Secretary



### SHIVA MILLS LIMITED

CIN: L17111TZ2015PLC022007

Registered Office: 249-A, Bye-Pass Road, Mettupalayam Road, Coimbatore – 641 043, ebsite : www.shivamills.com, Telephone : (0422) 2435555 E-mail: shares@shivamills.com

## NOTICE OF 8<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that 8th Annual General Meeting (AGM) of the members of SHIVA MILLS LIMITED will be held on Thursday, 21st September 2023 at 11.30 A.M (IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM), in accordance with the Circular No.10/2022 dated 28.12.2022, 2/2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs dated 5th May, 2022 read with Circular No.20/2020 dated 5th May, 2020 and Circular No.14/2020 dated 8.4.2020, Circular No.17/2020 dated 13th April, 2020 ("MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India (SEBI) circular dated 5th January, 2023, 13th May 2022 and 12th May 2020, to transact the business as set out in the Notice of AGM dated 26th June 2023, sent through e-mail, to those shareholders holding shares in the Company as on 14th August 2023 and whose e-mail addresses are registered with the Company RTA / Depositories. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 15.9.2023 to 21.9.2023 (both days inclusive).

The AGM Notice along with the explanatory statement and the Annual Report for the financial year 2022-2023 is also available and can be downloaded from the Company's website www.shivamills.com and the website of the stock exchanges in which the shares of the Company are listed i.e., BSE Ltd at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of M/s. Link Intime India Private Ltd (LIIPL) at www.instavote.linkintime.co.in

Members can attend and participate in the Annual General Meeting through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the Annual General Meeting are provided in the Notice of the Annual General Meeting. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management

and Administration). Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, the members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using remote electronic voting system (remote e-voting) provided by LIIPL. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the Annual General Meeting ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting/e-voting is provided in the Notice of the Annual General Meeting. For further details in connection with e-voting, members may also visit the website www.instavote.linkintime.co.in.

The Board of Directors has appointed Sri.R.Dhanasekaran, Practicing Company Secretary, Coimbatore as Scrutinizer to scrutinize the voting process in a fair and transparent manner.

Members are requested to carefully read the instructions printed for voting through e-voting on the AGM Notice Members are also requested to note the following:-

ı	_1	Date of completion of dispatch of Notice	21st August 2023
ı	2	Date and time of commencement of remote e-voting	Monday, 18th September 2023 @ 10.00 A.M (IST)
I	3	Date and time of end of remote e-voting. Remote e-voting will not be allowed beyond this date and time	Wednesday, 20 <sup>th</sup> September 2023 @ 5.00 P.M (IST)
I	4	Cut-off date of determining the members eligible for e-voting	Thursday, 14th September 2023

Only those members, who are present in the AGM through VC / OAVM facility and had not cast their votes on the resolution through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.

A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on 14th September 2023 (the cut-off date) only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the Annual General Meeting. The voting rights of members shall be in proportion to the shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date. The members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend / participate in the

AGM through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their votes again. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after the Notice has been sent electronically by the Company and holds shares on the cut-off date, may obtain the login id and

password by sending a request to enotices@linkintime.co.in. However, if he/ she is already registered with Link Intime India Private Ltd for remote e-voting then he / she can use his/her existing User ID and Password for In case the shareholder's email id is already registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent

("RTA") / Depositories, login details for e-voting are being sent on the registered email address. f you have not registered your e-mail address with the Company / Depository you may please follow below instructions for obtaining login details for e-voting.

Shareholders holding shares in physical mode and who have not updated their e-mail Id's are requested to communicate their change of postal address (enclose copy of Aadhar Card), e-mail address, self-attested copy of PAN Card and bank account details (enclose cancelled cheque leaf) quoting their folio nos. to the Registrar and Share Transfer Agents M/s. SKDC Consultants Limited, Suriya May Flower Avenue, Behind Senthil Nagar, Sowripalayam Road, Coimbatore - 641 028.

Shareholders holding shares in Demat mode are requested to contact the Depository Participant ("DP") and register their e-mail address in their Demat account as per the process advised by your DP.

For details relating to remote e-voting, please refer to the Notice of the AGM. If you have any queries relating to remote e-voting please refer the Frequently Asked Questions (FAQ's) and Instavote e-voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in under Help Section or write an e-mail to enotices@linkintime.co.in or Call us at Tel: 022-49186000. In case of any grievances connected with facility for voting by electronic voting means, you can write an e-mail to instameet@linkintime.co.in or Call us at Tel: (022-49186175). The result of voting will be announced by the Company in its website www.shivamills.com and on the website of

Link Intime India Private Limited (LIIPL) and also will be intimated to the Stock Exchanges in which the shares of the Company are listed. This public notice is also available on the Company's website www.shivamills.com and in the website of LIIPL viz. https://instavote.linkintime.co.in and on the website of the Stock Exchanges where the shares of the Company

> For Shiva Mills Limited M SHYAMALA **Company Secretary** ACS 24464



Coimbatore

CIN: L35110MH1948PLC006472

Email: shares@greatship.com; Website: www.greatship.com

#### ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2) नीओ 33-34-35, प्रथम तल, सेक्टर-17 ए, चंडीगढ़ चतुर्थ तल पर भी अतिरिक्त स्थल आबंटित किया व

प्रकरण सं: OA/392/2019 ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली 1993 के नियम 5 के उप—नियम (2ए) के साथ पठिर

> बैंक ऑफ महाराष्ट विरुद्ध नरेंद्र वशिष्ठ

(1) नरेंद्र वशिष्ठ

/ डब्ल्य / एस / ओ – ब्रह्मचारी कौशलेन्द्र

**नरेंद्र वशिष्ठ** पुत्र ब्रह्मचारी कौशलेन्द्र, मकान नं. 2084 तथा 2085 . वेक्टर ६, बहादुरगढ़, जनपद झज्जर, हरियाणा

अधिनियम की धारा 19 की सप-धारा (4) के अंतर्गत न्यायालयी आदेश (समन्स)

(2) ब्रह्मचारी कौशलेन्द्र, सुरिभ सेवा सदन, बेरी मार्ग, टांडा हेड़ी के समीप, झज्जर, हरियाणा न्यायालयी आदेश (समन्स)

जबिक, OA/392/2019, दिनांक 08/08/2023 को माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार के सम सूचीबद्ध किया गया था।

.. जबिक, यह माननीय अधिकरण **रु. 37.42.498 /—** के ऋणों की वसुली हेतु आपके विरुद्ध दर्ज अधिनिय की धारा 19(4) के अंतर्गत उक्त आवेदन, (ओए) पर न्यायालयी आदेश अर्थात् समन्स / सूचना निर्गत करके संतुष्ट है (आवेदन, प्रलेखों इत्यादि की प्रतियों के साथ संलग्न है)।

अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के अनुसार, आप अर्थात् प्रतिवादियों को निम्नानुसार निर्देशि किया जाता है कि:-(i) न्यायालयी आदेश अर्थात् समन्स प्रसारित होने के तीस दिवसों के अंदर हमें कारण बताएं/दिखा

के जिस राहत हेतु प्रार्थना की गई है, उसे स्वीकृत क्यों नहीं किया जाना चाहिए; (ii) आवेदक द्वारा मूल आवेदन—पत्र के क्रमांक 3ए के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की गई संपत्तियों ए संपत्तियों के अतिरिक्त अन्य संपत्तियों अथवा परिसंपत्तियों के विवरण प्रकट करना

(iii) आपको, संपत्तियों की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई और निस्तारण के लंबित रहने तक, मूर आवेदन—पत्र के क्रमांक 3ए के तहत प्रकट की गई प्रतिभृत परिसंपत्तियों या ऐसी अन्य परिसंपत्तिय और संपत्तियों का लेन–देन करने या निस्तारण करने से प्रतिबंधित किया जाता है;

(iv) आप, अधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना, अपने व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम के अलावा, किसी भी ऐसी परिसंपत्ति. जिस पर प्रतिभति हित सजित किया गया है उसको और /या मल आवेदन-पत्र व क्रमांक 3ए के तहत विनिर्दिष्ट या प्रकट की गईं अन्य परिसंपत्तियों एवं संपत्तियों को बिक्री, पट्टे व माध्यम से या अन्यथा हस्तांतरित नहीं करेंगे;

(v) आप व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम के तहत प्रतिभूत पिरसंपित्तयों या अन्य पिरसंपित्तयों और संपित्तयें की बिक्री से प्राप्त बिक्री–आय के लिए उत्तरदायी होंगे और ऐसी बिक्री–आय को, ऐसी परिसंपत्तिय पर प्रतिभूति हित धारण करनेवाले बैंक या वित्तीय संस्थानों के पास अनुरक्षित खाते में जमा करेंगे। आपको, लिखित विवरण, आवेदक को इसकी एक प्रति प्रेषित करने के दायित्व निर्वहन के साथ, प्रस्तुत करने और 22-11-2023 को पूर्वाह 10:30 बजे रिजस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जात है। ऐसा न करने पर आवेदन पर सुनवाई की जाएगी और आपकी अनुपस्थिति में निर्णय ले लिया जाएगा

आज दिनांक 18–08–2023 को मेरे हस्ताक्षर और इस अधिकरण की मुद्रा के अंतर्गत निर्गत। न्यायालयी आदेश अर्थात् समन्स निर्गतार्थ प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)

#### PUBLIC NOTICE IOTICE are hereby given that the below mentioned Sub Brokers / Authorised Person are no longe ffiliated as Sub Brokers / Authorised Person of Kotak Securities Limited. Sub Broker Exchange Registration Numbers of Sub Broker Trade Address of Sub Broker/ Authorised Person Person Nan **Authorised Person** NSE - AP0291118061 Shop No 3 Second Floor 34, Navyug Market , Near Gda Office, Ghaziabad Aditi Dhama Aditi Dhama 201001 NSE - AP0291438991 Ashish Sahai Ashish Sahai 8 217, Indira Nagar, Lucknow, Agra BSE - AP01067301144180 226016 Deena Akta Deena Akta NSE - AP0291385511 Flat No 802 Arihant Altura, Abhay Khan 2 Indirapuram, Ghaziabad-201014 NSE - AP0291540101 MCX - 157428 C 177 A Apollo Hospital, Sector 26 Noid Gauray Gard Gauray Gard autam Buddha Nagar, Noida-201301 NSE - AP0291102441 7214 Tower-7 Ats. One Hamlet Secto Gurmeet Sing BSE - AP0106730198942 104, Gautam Budha Nagar, Noida-201301 NSE - AP0291489163 in4 303 Eldeco Amantran Fng BSE - AP01067301146916 Expressway Service Rd Nr Hdfc Bank Ka Wealth rivate Limite ivate Limited Eldeco Magnolia Park Sector 119 Noida-201307 NSE - AP0291116491 E 58 Lal Baag, Near Sabzi Mandi. Lo Kanchan Kanchar MCX - 148024 Chauhan Chauhan Dehat, Ghaziabad-201102 H No-2/132, Rajendra Nagar Sector Kavita Sharm avita Sharn NSE - AP0291096381 BSE - AP0106730176843 Sahibabad, Ghaziabad-201005 4/118 B Ram Nagar Colony, Civil Lines Near Ramraghu Hospital Civil Lines Agra-282002 Komal Surana Komal Surana NSE - AP0291100801 NSE - AP0291469961 Sk I 25 LGF 06 Shop, Indirapuram GZB Ghaziabad-201014 Meena Plot No 465 1st Floor Uk 2, Ecotech Greater Noida, Noida-201306 Moonshine Wa To Growth LLF NSE - AP0291560774 loonshine Way โo Growth LLP House No, 136 New, Kot Ga Ghaziabad-201001 Pinki Gupta Rajbhar Tola Ward, No 19 Moharipu 3SE - AP01067301120322 Gorakhur, Agra-273007 Pooja Pooja NSE - AP0291466541 60, Islamabad Kalda, Gautam Buddh MCX - 155174 Nagar, Noida-203207 Puja Singh NSE - AP0291118101 B 10 Krishna Block Nandini Gowlo Puja Singh Dham, Vrindavan Mathura, Near Radh Florence, Mathura-281121 NSE - AP0291394161 Satya Prakash Satya Prakash Flat 1055 Niti Khand, 1 Indirapura Kushwaha Kushwaha MCX - 159483 Ghaziabad, Ghaziabad-101014 /ardhman Jair /ardhman Jain NSE - AP0291112161 15 A 21 Ats Village, Sector 93a Noida Gautam Budh Nagar, Noida-201304

Please note that above mention Sub Brokers (SB)/Authorised Person (AP) are no longer associate with us. Any person henceforth dealing with above mention SB/AP should do so, at their own risk. Kota Securities Ltd. shall not be liable for any such dealing. In case of any queries for the transactions till date Investors are requested to inform Kotak Securities Ltd. within 15 days from the date of this notification ing which it shall be deemed that there exists no queries against the above mentioned SB/AP.

Kotak\* Kotak Securities Limited. Registered Office: 27 BKC, C 27, G Block, Bandra Kurla Korak Securities Complex, Bandra (E), Mumbai 400051. CIN: U99999MH1994PLC134051, Telephone No.: +22 43360000, Fax No.: +22 67132430. Website: www.kotak.com / www.kotaksecurities.com Correspondence Address: Infinity IT Park, Bldg. No 21, Opp. Film City Road, A K Vaidya Marg, Malac (East), Mumbai 400097. Telephone No: 42856825. SEBI Registration No: INZ000200137 (Member o NSE, BSE, MSE, MSE, MCDEX), AMFI ARN 0164, PMS INPO00000258, and Research Angus INH000000586. NSDL/CDSL: IN-IN-DP-629-2021. Compliance Officer Details: Mr. Sandeep Gupta Call: 022 - 4285 8484, or Email: ks.compliance@kotak.com.

पंजीकृत कार्यालयः येस बैंक हाऊस, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ▼YES BANK पजाकृत काथालयः यत अयः ए सांताक्रूज ईस्ट, मुंबई–400055

#### अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना सरफासी नियमावली के नियम 9(1) के साथ पठित नियम 8(6) के तहत

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई—नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार(ओं) और जमानती(ओं) को सूचित किय जाता है कि प्रत्याभूत ऋणदाता को बंधक / प्रभारित अधोल्लिखित अचल संपत्ति जिनका येस बैंक लि. अर्थात प्रत्याभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा ले लिया गया है, **(1) सुश्री कौसर इदरीश और (2) मो. इदरीश** से प्रत्याभूत ऋणदाता को देय दिनांव 18.05.2022 को देय राशि रु. 16,84,692.72/— (रुपये सोलह लाख चौरासी हजार छह सौ बानवे और बहत्तर पैसा मात्र) और अनुबंधित दर से भविष्य की ब्याज व प्रभारों की वसूली के लिए "जो है, जहाँ है", "जहाँ है, जैसी है" और "जो भी है" आधार पर 15 सितंबर, 2023 को बिक्री की जायेंगी। प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व समयादेश लेकर इच्छुव पार्टियों / निविदाकारों द्वारा संपत्ति का निरीक्षण 8 सितंबर, 2023 को समय पूर्वा. 11:30 से अप. 12:30 के बीच किया जा सकता है।

### संपत्ति का विवरण

कर्जदार/जमानती	(1) सुश्री कौसर इदरीश और (2) मो. इदरीश		
(ओं) / प्रतिभूति	दोनों निवासीः बी–5 / 10, फ्लैट नं. जीएफ–03, डीएलएफ अंकुर		
प्रदाता /ओं के	विहार, लोनी गाजियाबाद—201102, <b>अन्य पताः</b> ए—365, गली नं. 7,		
नाम	श्री राम कालोनी, खजूरी, दयालपुर, दिल्ली—110094		
18.05.2022 को	रु. 16,84,692.72/— (रुपये सोलह लाख चौरासी हजार छह सौ बानवे		
देय राशि	और बहत्तर पैसा मात्र)		
संपत्ति का	प्लॉट नं. बी–5 / 10, एलआईजी फ्लैट नं. जीएफ–03, भूतल, बांयी ओर		
विवरण	पीछे की साइड, डीएलएफ अंकुर विहार, गाँव-लोनी, तहसील व जिला		
	गाजियाबाद, (उत्तर प्रदेश)		
	<b>सीमाएँ:</b> पूर्वः प्लॉट नं. बी-5/11, पश्चिमः प्लॉट नं. बी-5/9, उत्तरः		
	प्लॉट नं. बी-3/17, दक्षिणः 9.00 मीटर चौड़ा रोड		
आरक्षित मूल्य(रु.)	रु. ९,50,000 ∕ − (रुपये नौ लाख पचास हजार मात्र)		
धरोहर राशि जमा (रु.)	रु. 95,000/— (रुपये पिचानवे हजार मात्र)		
भौतिक कब्जे की तारीखः <b>06 मार्च, 2023</b>			
	तारीखः <b>22 जून, 2022</b>		
निविदा जमा करने	12 सितंबर, 2023 समय अप. 3.00 तक		
की अंतिम तिथि			
ई—नीलामी की	15 सितंबर, 2023 समय पूर्वा. 11:00 से अप. 2:00 तक		
तिथि व समय	5 मिनट अवधि के विस्तारों सहित		
बिक्री के विस्तृत निबंधन	न व शर्तों के लिए कृपया प्रत्याभूत ऋणदाता की वेबसाइट अर्थात www.yesbank.in पर		
दिया लिंक https://www.yesbank.in/about-us/media/auction-property देखें।			

निविदा दस्तावेज / ई-निविदाकरण कैटलॉग प्राप्त करने या अचल संपत्ति / प्रत्याभूत परिसंपत्ति निरीक्षण में किसी कठिनाई की अवस्था में और पूछताछ के लिए कृपया संपर्क करें: संबंधित अधिकारी येस बैंक लि., श्री मनीष कुमार, संपर्क नं. +91–9250003060 या ई–मेलः manish.kumar51@yesbank.ir और अधिकारी, मैसर्स ई–प्रक्योरमेंट टैक्नोलॉजीज लिमिटेड (नीलामी टाईगर), अहमदाबाद, वेब पोर्टल पत https://sarfaesi.auctiontiger.net, निविदाकार सपोर्ट नंबरः +91 9265562821 / 18 और 9978591888, 079-68136880 / 68136837, ई-मेलः support@auctiontiger.net और ramprasad@auctiontiger.net संपर्क व्यक्तिः श्री राम शर्माः 9978591888

जैसा कि अधिनियम की धारा 13(8) में अपेक्षित है, हमारे सभी बकाया हमारे द्वारा वहन सभी लागतं प्रभारों और व्ययों सहित बिक्री की तिथि या हस्तांतरण से पूर्व किसी भी समय हमें चुकता कर दिए जा हैं तो प्रत्याभूत परिसंपत्ति हमारे द्वारा बिक्री या हस्तांतरित नहीं की जायेगी, और प्रत्याभूत परिसंपत्ति के हस्तांतरण या बिक्री के लिए हमारे द्वारा आगे कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी।

### कर्जदार/जमानतियों को बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित नियम 9(1) के तहत उपर्युव प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के अंदर इसके भुगतान के लिए बाध्यकारियों (ऑब्लिगेंट्स) को सूचन दिनांकः 22.08.2023

(प्राधिकत अधिकारी) येस बैंक लिमिटेड

इनसिल्को लिमिटेड

दिनांक 25-06-2021 के प्रभाव के तहत स्वैच्छिक परिसमापन) सीआईएन : L34102UP1988PLC010141 पंजी. कार्यालय : ए-5, यूपीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एस्टेट, भारतीयग्राम, गजरौला, जिला– अमरोहा, यूपी. – 244223 फोन : **09837923893**, फैक्स : (05924) 252348, ईमेल आईडी : insilco2@gmail.com, वेबसाइट : www.insilcoindia.cor

35वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के लिए सूचना

एतद्दवारा सचना दी जाती है कि:

कम्पनी की 35वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) कम्पनी अधिनियम, 2013 के सभी लागू प्रावधानों और तदधी कम्पना का उठवा वापक सामान्य बठक (एजाएम) कम्पना आधानवम, 2013 क समा लागू आवधाना आर तत्यांन विरिचेत नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्व और फ्रकटीकरण अपेक्षार) विनियमावती, 2015 के साथ पठित कार्य मंत्रातय द्वारा जारी दिनांक 8 अप्रैल, 2020 के जनरल सर्कुलर नंबर 14 / 2020, 17 / 2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 देनांक 5 मर्ड. 2020 के 20/2020. दिनांक 13 जनवरी. 2021 के 02/2021. दिनांक 14 दिसम्बर 2021 व रात्राण *3 न*ष्ठ, *2022 2021, 227 2021, 19*41, 72 3 वर्गनाण 13 जान्तर्य, 2021 के 922 2021, 1941 में पत्रित्तर्य १/२ 2021, दिनार्टिक 5 मई 2022 के 02/2022 तथा दिनांक 28 दिसम्बर को जारी अंतिम सर्कुलर नंबर 10/2022 एमसीए सर्कुलर्स") और भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड ('संबी') के दिनांक 12 मई 2020 के अनुपालन में उनके सर्कुलर नंबर सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी 1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 (जिसकी वैघता सेबी ने अपने सर्कुलर नंबर सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी 2 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 को दिनांक 15 जनवरी 2021 के माध्यम से 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया था) तथा दिनांक 5 जनवरी 2023 के सर्कुलर ('सेबी ाठ जान्यर क्रयता पर गांव्यन ते जा । पत्तवर 2021 तक बढ़ा । वया। था। तथा। वता के 5 जानवरा 2023 के सेकुलरें (सेबी सर्कुलरों) नंबर सेबी / एचओ / सीआरडी / पीओडी-2 / पी / सीआइंडार / 2023 /4, और कोई अन्य लाग्न सर्कुलरों जो इस संबंध में जारी किए गये हों और कंपनी को वीडियों कॉफोन्सिंग (विसी) / अन्य आंडियों विजुअल साधनों (ओएवीएम) की सुविधाओं के माध्यम से उनकी वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के आयोजन के लिए स्वीकृति प्रदान करती है, ताकि नोटिस में एजीएम निर्दिष्ट व्यवसायिक लेनदेन निष्पादित किये जा सकें।

वित्तीय वर्ष 2022—23 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें नोटिस, बोर्ड की रिपोर्ट, लेखा परीक्षक क रिपोर्ट लेखा-परीक्षण किए गरो विनीय विवरण और विनीय वर्ष 2022-23 के लिए अन्य आवश्यक दस्तावे ारपाट, लखा—परावण किए गया गिराव विषयण और गिराव विष 2022—23 के लिए अन्य आवश्वक दस्तावज शामिल हैं, उन्हें कंपनी के उन सदस्यों को केवल ई—मेल अर्थात इलेक्ट्रॉनिक रूप द्वारा भेजा जाएगा जिन सदस्यों के ईमेल पते कंपनी के रजिस्ट्रार और शैयर ट्रासफर एजेंट के साथ पंजीकृत किए गये हैं, और जिनके ई—मेल कंपनी के साथ या उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिमागियों **("डिपॉजिटरी")** के साथ एमसीए ाजाचा इन्नार करना ये साथ या उपमें सवायता कार्याजावार आरोनागचा **( विभावरा)** ये साथ एसराह के अनुसार पंजीकृत किए यो हैं। कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रीनेक वोटिंग प्रणाली ("स्पिय ई-वोटिंग") का उपयोग करके, वीसी / ओवीएएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड के माध्यम से एजीएम के दौरान ई—वोटिंग के लिए दरस्थ वोट नवाल तिपत्रातिका जिल्लाक्षित्रका जिल्लाक्ष्मित्रकार के मान्यन स्वतिहास के प्रति । चुनावन क्रियार प्रति पूर्णका जानने की पुविधा प्रदान करेगी और एजीएम के दौरान रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ("एनएसडीएल") माध्यम से की जाएगी। एजीएम में शामिल होने के निर्देश और एजीएम के दौरान रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में भाग लेने या ई—वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट डालने के तरीके एजीएम के नोटिस में प्रदान किए ग हैं। वीसी, ओएपीएम सुविवा के माध्यम से भाग लेने वाले पहरूपों की कंपनी अधिनियम, राज की घारा पार्ट्स के तहत कोरम के प्रयोजन के लिए सम्मिलित किया जाएगा वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की सूचना और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.insilcoindia.com और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और एनएसडीएल की वेबसाइट https%//www.evoting.nsdl.com पर उपलब्

्रीमेटरियलाइज्ड मोड अर्थात अप्रत्यक्षीकृत रूप में, भौतिक रूप में शेयरघारक सदस्यों और जिन सदस्यों अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किये हैं, उनके लिए दूरस्थ रूप से वोट डालने का तरीका 35वीं एजीएम व नोटिस में प्रदान किया गया है।

जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप में शेयर रखे हैं, जिनके ईमेल पते कंपनी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, सदस्य अपना नाम, फोलियो नंबर, पूरा पता, पैन कार्ड सहित पंजीकृत किये जाने वाले ईमेल पते का उल्लेख करते हुए या पैन कार्ड के स्थान पर कोई भी दस्तावेज (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, आघार कार्ड) की स्कैन की गई स्व—सत्यापित प्रति के साथ, कंपनी के ईमेल पते insilco2@gmail.com पर ईमेल करें। जिन सदस्यों के पास डीमैट फॉर्म में शेयर रखे हैं वे सदस्य अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट व पर इनार करिं। जिस तरिसार्थि भी किंदि कार किंदि के नियर रिख र प्रत्येच जया कि को जिसकारियां आत्रात्तिक के साथ अपना ईमेल पता अपडेट कर सकते हैं। यदि कंपनी/आरटीए के पास पहले से पंजीकृत ई-नीक आईडी में कोई बदलाव होता है, तो सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंद में कंपनी के ईमेल पते insilco2@gmail.com और इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध मे डिपॉजिटरी प्रतिमागी को तुरंत ऐसे बदलाव की सूचना दें।

कंपनी के वे सदस्य जिनके पास औमटेरियलाइज्ड अर्थात अप्रत्यक्षीकृत रूप में शेयर रखे गये हैं, वे **अंतिम** तिषि यानी बुखवार, 13 सितंबर 2023 को गीतिक रूप में या रिमोट ई—वोटिंग द्वारा ओएवीएम और एजीएम के माध्यम से वोट डालने या वीसीओएवीएम के माध्यम से एजीएम की बैठक में माग लेने के हकदार होंगे। रिमोट ई—वोटिंग शुक्रवार, 15 सितंबर 2023 को प्रातः 9:00 बजे (भारतीय समयानुसार) शुरू होगी और भंगलवार, 19 सितंबर 2023 को सांवकाल 5:00 बजे (भारतीय समयानुसार) पर समागत होगी। उसके बाद रिमोट ई—वोटिंग मॉड्यूल अक्षम कर दिया जाएगा। एक बार जब सदस्य रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से किसी प्रस्ताव पर वोट डाल देता है, तब उसे बाद में उसमें बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन सदस्यों ने रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से किसी प्रस्ताव पर वोट डाल देता है, तब उसे बाद में उसमें बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन सदस्यों ने रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल दिया है, वे भी एजीएम में माग ले तो सकते हैं, लेकिन दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। कंपनी के वे सदस्य जिनके पास डीमटेरियलाइज्ड अर्थात अप्रत्यक्षीकत रूप में शेयर रखे गये हैं वे **अंतिम** 

चूंकि सदस्यों की भौतिक उपस्थिति समाप्त कर दी गई है, इसलिए प्रॉक्सी की नियुक्ति की कोई आवश्यकत नहीं है। इसलिए, एजीएम के लिए सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। हालाँकि निकाय कॉर्पोरेट वीसी/ओपवीएम के माध्यम से एजीएम में माग लेने और इलेक्ट्रॉनिक वीटिंग ("ई-वीटिंग") के माध्यम से अपने वोट डालने के लिए अधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने के हकदार होंगे। कॉर्पोरेट निकाय जिनके अधिकृत प्रतिनिधि वीसीध्ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने के इच्छुक हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे कंपनी को insilco2@gmail.com पर अपने प्रतिनिधि को बैठक मे भाग लेने और उनकी ओर से वोट डालने के लिए अधिकृत करने वाले बोर्ड के प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति insilco2@gmail.com पर एजीएम शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले ई-बोटिंग के माध्यम से भेज

२... मेसर्स एपीके एंड एसोसिएट्स के प्रोपराइटर, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी श्री अजय कुमार प्रजापति क ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किय

जो सदस्य एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं या प्रश्न पछना चाहते हैं वे अपने पंजीकत जा राजस्त्र रजाएन क वारान जर्मन ।वचार व्यक्त करना चाहत ह या प्रश्न पूछना चाहत है, व अपने पजीकृत इंमेल पते से अपना नाम, डीपी आईडी और ग्राहक आईडी नंबर/फोलियो नंबर और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए कंपनी के ईमेल पते पर अपना अनुरोध एजीएम शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले insilco2@gmail.com मेजकर स्वयं को पंजीकृत और संपर्क कर सकते हैं। जो सदस्य कोई प्रश्न पूछाना चाहते हैं या वे किसी प्रकार की जानकारी जानना चाहते हैं, उनसे अनुरोध

किया जाता है कि वे अपने पंजीकृत ईमेल पते अपना नाम, डीपी आईडी और ग्राहक आईडी नंबर/फोलियो नंबर और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए कंपनी के ईमेल पते insilco2@gmail-com पर बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी को ईमेल लिखकर/भेजें। उपरोक्त जानकारियां एमसीए और सेबी के लागू सर्कुलर के अनुपालन में कंपनी के सभी शेयरधारकों की

कृते इनसिल्को लिमिटे (दिनांक 25-06-2021 के प्रभाव के तहत स्वैच्छिक परिसमाप-तिथिः 21 अगस्त 2023 गीतिका वाष्ण स्थानः पलवल



क्षेत्रीय कॉर्यालय - दिल्ली तृतीय तल, प्लॉट नं 21, 21/1, पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली -110005 फोन नं. 011-42331664, 45128661, 7982865660 ईमेलः ro1008@sib.co.in, qc1008@sib.co.in दिनांक: 21.08.2023

पारारा ८— १४-२० (नियम ८(६) का परंतुक देखें) अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए निविदा सह नीलामी बिक्री सूचना

शाखाः करोल बाग – नई दिल्ली वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्रों के लिए निविदा सह नीलामी बिक्री सूचना प्रतिभूति

वर्णित अचल संपत्ति साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, शाखा – करोल बाग – नई दिल्ली में वार्ड नं. 18, पूसा रोड, सिटी अस्पताल के सामने, मेट्रो पिलर नं. 95, करोल बाग पीओ, दिल्ली -110005 (सुरक्षित लेनदार) में बंधक की गई है। जिसका सांकेतिक कब्जा 11.06.2019 को नाउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय — दिल्ली के अधिकत अधिकारी द्वारा लिया गया है, तीसरी मंजिल पर, प्लॉट नं. 21 और 21 / 1, करोल बाग मेट्रो स्टेशन के पास, पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली — 110005 (सुरक्षित लेनदार), ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है वैसा है'', और "जो कुछ भी है" (सुरक्षित संपत्ति की झुठ, प्रकृति और भौतिक स्थिति के संबंध में) दिनांक 25.09.2023 को दोपहर 12:00 बजे (बिक्री की तारीख) को बेचा जा रहा है, साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय— दिल्ली तीसरी मंजिल पर, प्लॉट नं. 21 और 21 / 1, करोल बाग मेट्रो स्टेशन के पास, पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली — 110005 (बिक्री का स्थान), साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, शाखा करोल बाग—नई दिल्ली को दिनांक 20.08.2023 की स्थिति के ानुसार 25,62,93,886.78 रुपये (पच्चीस करोड़ बासठ लाख तिरान्वे हजार आठ सौ छियासी और पैसे अड्डहत्तर मात्र) की राशि की वसूली हेतु साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, शाखा करोल बाग—नई दिल्ली को उधारकर्ता से आगे के ब्याज, लागत और व्यय (सुरक्षित लेनदार) के साथ—साथ आगे के ब्याज, लागत और व्यय (सुरक्षित लेनदार) की वसूली के लिए उधारकर्ता (1) मैसर्स सेवमैक्स होलसेल क्लब प्राइवेट लिमिटेड, 401 'डी' मॉल, नेताजी सुभाष प्लेस, नई . देल्ली — 110034 और 806—807, उद्योग विहार, फेज 5, गुड़गांव, हरियाणा — 122001 और गारंटर (2) श्री वैभव सिंघल, पुत्र श्री ज्ञान चंद सिंघल, 25 / 75 शक्ति नगर, दिल्ली —110007 (3) सुश्री सीमा गुप्ता, पुत्र श्री ज्ञान चंद सिंघल, 25/75 शक्ति नगर, दिल्ली — 110007, आरक्षित मूल्य रु. 1,26,27,000 (रु. एक करोड़ छब्बीस लाख सत्ताईस हजार मात्र) और जमा धरोहर राशि रु. 12,62,700 (रु. बारह लाख बासठ हजार सात सौ रुपये) होगी।

सूची नं. 1 मैसर्स सेवमैक्स होलसेल क्लब प्राइवेट लिमिटेड सम्पत्ति मालिक का नाम

क्षेत्रफल 2806 वर्ग फुट, वाणिज्यिक परिसर के एट्रियम फ्लोर पर जिसे ''पार्क मॉल" के नाम से जाना जाता है, जी.टी. रोड, एन.एच. 1, सेक्टर–62, कुंडली, सोनीपत, हरियाणा में स्थित, कन्वेयंस डीड सं. 2853 में अधिक विस्तार से वर्णित दिनांक 21.11.2016 उप-रजिस्ट्रार-राय, सोनीपत हरियाणा पंजीकृत, मैसर्स सेवमैक्स होलसेल क्लब प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व और कब्जे में — चौहद्दी : उत्तर में — रास्ता और यूनिट नं. ए—37, दक्षिण मे — साइड सेट बैक / ड्राइव वे, पूरब में — यूनिट नं. ए—41, पश्चिम में — यूनिट नं. ए—43

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, (सिक्योर्ड क्रेडिटर) वेबसाइट अर्थात www.southindianbank.com पर दिए गए लिंक को देखें। पाधिकत अधिकारी

दिनांक 21.08.2023 साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड



#### यूनिपार्ट्स इण्डिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: ग्रिपवेल हाऊस, ब्लॉक-5, सेक्टर- सी 6 एवं 7, बसंत कुंज, नई दिल्ली -110070 कॉरपोरेट कार्यालय: प्रथम मंजिल बी 208, ए1 एवं ए 2,फेस-II, नोयडा-201305, (उ०प्र०) इण्डिया, दूरभाष: +91 120 4581400,

CIN: L74899DL1994PLC061753 ईमेल: compliance.officer@unipartsgroup.com; वेबसाइट: www.unipartsgroup.com

#### यूनिपार्ट्स इण्डिया लिमिटेड की उन्नतीसवीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना एवं ई-वोटिंग की जानकारी

एतद्तद्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि यूनिपार्ट्स इण्डिया लिमिटेड ("**कम्पनी"**) के सदस्यों की **उन्नतीसवीं साधारण बैठक ("एजीएम")** कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) एवं सिक्योरीटीज एण्ड एक्सचेन्ज बोर्ड ऑफ इण्डिया (लिस्टिंग दायत्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं), विनियमन, 2015, के लागू प्रावधानों एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों, साथ में पठित परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक दिसम्बर 28, 2022 साथ में पठित परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक अप्रैल 08, 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक अप्रैल 13, 2020, परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक मई 05, 2020 एवं परिपत्र संख्या 02/2022 दिनांक मई 05, 2022 ('संयुक्त रूप में संदर्भित एमसीए परिपत्रों') एवं सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक जनवरी 5, 2023 एवं सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक मुर्ड 13. 2022 ('सेबी परिपत्र') ('संयक्त रूप में संदर्भित एमसीए परिपत्रों एवं सेबी परिपत्रों) के अनुपालन में उन्नतीसवी एजीएम बुलावे की सूचना (**"एजीएम सूचना**") में निर्दिष्ट व्यवसाय के निष्पादन हेतु विडियों कान्सेसिंग (**"वीसी"**) अथवा अन्य आडियो विजुवल माध्यम (**"ओएवीएम"**) द्वारा **शुक्रवार, 15 सितम्बर, 2023 को सायं 04:30 बजे (आईएसटी)** पर बिना सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के जायेगी। सदस्य एजीएम वेधा द्वारा शामिल होकर भाग ले सकते हैं वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 की धारा के अन्तर्गत कोरम की गणना के उदेश्य से गिना जायेगा।

परिपत्रों के अनुपालन में एजीएम की सूचना एवं वर्ष 2022-23 की वाषिर्क रिपोर्ट मार्च 31, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय कथन को मिलाकर ("वार्षिक रिपोर्ट") सभी सदस्यों, जिनके ईमेल पते डिपॉटरीज भागीदार अथवा कम्पनी अथवा कम्पनी के रजिस्ट्रार एण्ड हस्तांतरण एजेन्ट, लिंक इनटाइम इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड ("लिंक इनटाइम अथवा आरटीए") के पास पंजीकृत को केवल ईमेल द्वारा भेज दी गई हैं। सभी सदस्यों को एजीएम की सूचना ईमेलिंग द्वारा भेजने का कार्य पूरा कर लिया गया है। एजीएम की सूचना एवं वाषिर्क रिपोर्ट की साफ्ट प्रतिलिपि साथ में कम्पनी की वेबसाइट <u>www.unipartsgroup.com,</u> स्टॉक एक्सचेन्जों यानि बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेन्ज ऑफ इण्डिया लिमिटेड की वेबसाइटों <u>www.bseindia.com</u> एवं <u>www.nseindia.com</u> पर क्रमशः एवं लिंक इनटाइम, ई—वोटिंग एजेन्सी की वेबसाइट <u>https://instavote.linkintime.co.in</u> पर उपलब्ध है।

एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग अथवा ई-वोटिंग द्वारा वोट करने की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि **शुक्रवार, 15 सितम्बर, 2023 ("कट–ऑफ तिथि"**) है। कम्पनी के जिन शेयरधारकों के नाम कट–ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों की पंजिका वोटिंग अथवा लाभदाई स्वामी की सूची में अंकित होंगे, केवल वही एजीएम के दौरान इलेक्ट्रानिकली रिमोट ई–वोटिंग अथवा ई–वोटिंग के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सभी संकल्पों पर वोट देने के हकदार होंगे। एक व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को शेयरधारक नहीं है उसे इस संचार को केवल जानकारी के उदेश्य से लेना चाहिए। शेयरधारकों को वोटिंग का अधिकार कट–ऑफ तिथि को कम्पनी की चुकता इक्वीटी शेयर कैपीटल में उनके हिस्से के अनुपात में होगी।

कोई भी व्यक्ति जिसने शेयर्स अधिग्रहित किये हों और सूचना को भेजने के बाद कम्पनी का सदस्य बना हो और कट—ऑफ तिथि को शेयर्स धारण करता हो, लॉंगइन आईडी एवं पास वर्ड प्राप्त करने के लिए shamwant.kushwah@linkintime.co.in पर आग्रह भेज सकता है। हालाँकि, यदि वे पहले से ही ई–वोटिंग के लिए लिंक इनटाइम पर पंजीकृत हैं, तो वे अपना वोट देने के लिए मौजूदा यूजर आईडी एवं पास वर्ड का प्रयोग कर

### सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है किः

(क) सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग अथवा ई-वोटिंग द्वारा निष्पादित किया जा संकता है;

(ख) रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा निम्न वोटिंग अविध के दौरान उपलब्ध होगी: मंगलवार, सितम्बर 12, 2023 (प्रातः 09:00 बजे आईएसटी) रिमोट ई-वोटिंग का समापन वीरवार, सितम्बर 14, 2023 (सायं 05:00 बजे आईएसटी)

(ग) उपरोक्त वर्णित तिथि एवं समय के उपरा<u>न्त</u> रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी और उपरोक्त समय की समाप्ति पर लिंक इनटाइम द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉडयूल को तुरन्त अक्षम कर दिया जायेगा।

(घ) जिन शेयरधारकों ने एजीएम से पहले रिमाट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट दे दिया है वं एजीएम में वीसी/ओएवीएम द्वारा भाग ले सकते है, लेकिन फिर से वोट देने से हकदार नहीं होंगे।

(ण) एजीएम के दौरान भी ई—वोटिंग की सुविधा उपलब्ध होगी और वीसी∕ओएवीएम द्वारा एजीएम में उपस्थित वे सदस्य, जिन्होंने प्रस्ताव पर रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं दिया है और अन्यथा उन्हें ऐसा करने से रोका नहीं गया है, एजीएम के दौरान ई-वोटिंग द्वारा वोट देने के पात्र होंगे।

(त) एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट देने के बाद, सदस्य को उसे संशोधित अथवा बदलने के अनुमति नहीं दी जायेगी।

एजीएम में वीसी/ओएवीएम द्वारा ई-वोटिंग एवं शामिल होने की विस्तारित प्रक्रिया जिसमें भौतिक/डीमैट प्रपत्र में शेयर्स धारित सदस्य जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग अथवा ई—वोटिंग द्वारा वोट करने का तरीका एजीएम की सूचना में प्रदान किया गया है।

### ईमेल पतों के पंजीकरण/अपडेटिंग का तरीकाः

तिथि : अगस्त 21, 2023

थान : नोयडा

(क) **डिमैटरीलाइज माध्यम में शेयर धारित सदस्यो** से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते डिपॉटरीज भागीदारों, जिनके पास उनके डीमैट खाते बनाये गये हैं, के पास पंजीकृत करा लें।

(ख) भौतिक प्रपत्र में शेयर धारित सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते कम्पनी/आरटीए को लिखित में फोलियो न०, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी (आगे एवं पीछे) पैन कार्ड की (स्वअभिप्रमाणित स्कैन कॉपी) एवं आधार की (स्वअभिप्रमााणित स्कैन कॉपी) को पंजीकृत/अपडेट करा लें। जो सदस्य भौतिक प्रपत्र में शेयर धारण करते हों, उपरोक्त दस्तावेजों को अपडेट/पंजीकरण कराने के लिए ईमेल पते

मैसर्स लिंक इनटाइम इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, यूनिटः यूनिपार्ट्स इण्डिया लिमिटेड, नोबल हाईट्स, प्रथम मंजिल, प्लॉट न० एनएव 2, एलएससी, सी-1 ब्लॉक, नजदीक सावित्री मार्किट, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 एजीएम में रिमोट ई—वोटिंग से सम्बन्धित किसी भी प्रश्न अथवा समस्या के लिए शेयरधारक लगातार प्रश्न पछने ("**एफएक्यूज**") को संदर्भित कर सकते हैं अथवा ई–वोटिंग नियम पुस्तिका की सहायता शाखा https://instavote.linkintime.co.in अथवा श्री राजीव रंजन, एवीपी-ई-वोटिंग, लिंक इनटाइम, सी-101, 247 पार्क एलबीएस मार्ग, विक्रोली (पश्चिम), मुम्बई- 400083 को enotices@linkintime.co.in पर ई—मेल द्वारा लिख सकते हैं दुरभाष न० 022 - 49186000 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

compliance.officer@unipartsgroup.com अथवा आरटीए के निम्न पते पर भेज सकते हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे सूचना और विशेषकर, एजीएम में शामिल होने के अनुदेशों, एजीएम में रिमोट ई—वोटिंग अथवा ई—वोटिंग द्वारों वोट करने के तरीकों को सावधानी पूर्वक पढ़ लें।

मंडल की ओर से उनके लिए यूनिपार्ट्स इण्डिया लिमिटेड हस्ता०/-जतिन महाजन

कानूनी प्रमुख, कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी



REF: DEL/CRD/SAR/12/2023-24

खाता : मैसर्स सेवमैक्स होलसेल क्लब प्राइवेट लिमिटेड

हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित आम जनता को और विशेष रूप से उंघारकर्ता और गारंटर को नोटिस दिया जाता है कि नीचे

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि व्यवसायिक यूनिट नं. ए—42, सुपर

स्थानः नई दिल्ली



**Business Standard** Insight Out

UNIPARTS

अभौतिक रूप में घारण

स्थान : नई दिल्ली

जय भारत मारूति लिमिटेड CIN: L29130DL1987PLC027342 पंजी. कार्यालयः 601, हेमकुंट चैम्बर्स, 89, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - 110019.

तिथि : 21-08-2023

पंजीकृत करवाने के लिए निम्न अनुदेशों का अनुसरण करें

फोन.: 011-26427104: फैक्स: 011-26427100 ई—मेल: jbml.investor@jbmgroup.com; वेबसाइट: www.ibmgroup.com



वीडियो कान्फ्रेंसिंग / अन्य श्रव्य दृश्य माध्यमों के जरिए आयोजित की जाने वाली 36वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

कंपनी के सदस्यों की 36वीं वार्षिक आम बैठक शनिवार, 16 सितंबर, 2023 को दोपहर 12:15 बजे (आईएसटी) वीडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से कॉर्पेरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 10 / 2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022 और सेबी परिपत्र संख्य सेबी / एचओ / सीएफडी / पीओडी-2 / पी / सीआईआर / 2023 / 4 दिनांक, 5 जनवरी, 2023 और समय-समय पर जारी अन्य सभी लागू कानून एवं परिपत्र के अनुपालन में वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्धारित व्यवसायों को संचालित करने के लिए आयोजित की जाएगी। कंपनी ने वार्षिक आम बैठक के लिए वीसी / ओएवीएम सुविधा प्रदान करने के लिए केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (केफिनटेक) को नियुक्त किया है।

. उपर्युक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वार्षिक आम बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट वित्तिय वर्ष 2022–23 उन सभी शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से भेजी जाएंगी जिनके ई–मेल पते कंपनी / रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट और डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत हैं। वार्षिक आम बैठक की सूचना और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.jbmgroup.com पर, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर तथा केफिनटैक की वेबसाइट www.kfintech.com पर भी उपलब्ध कराई जाएगी

भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य और जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट डालने और वार्षिक आम बैठक में शामिल होने के लिए प्रामाणिक पत्र प्राप्त करने के लिए केफिनटैक evoting@kfintech.com पर संपर्क कर सकते हैं।

सदस्य जिसने रिमोट ई-वोटिंग से अपना वोट दे दिया है, वार्षिक आम बैठक में शामिल हो सकता है, परंतु वह पुनः अपना वोट डालने का हकदार नहीं होगा।

.ई—मेल पते रजिस्टर/अद्यतन करने का तरीका:

भौतिक स्वरूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य, जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ई-मेल पते अभी तक पंजीकृत नहीं कराए हैं, से अनुरोध है कि फार्म आईएसआर-1, साथ में अपने फोलियो नंबर का उल्लेख करते हुए अनुरोध पत्र, शेयर प्रमाण-पत्रों की स्कैन प्रति (फ्रंट और बैक), पैन की स्वयं-सत्यापित प्रति तथा किसी भी पते के सबूत की स्वयं-सत्यापित प्रति रिजर्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को एफ-65, प्रथम तल, ओखला फेस 1, ओखला औद्योगिक एस्टेट, नई दिल्ली-110020 को प्रस्तुत करके इसका पंजीकरण / अद्यतन करा

डीमैटीरियलाइज़्ड स्वरूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य, जिन्होंने अपने ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं कराए हैं, से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास अपना ई—मेल पता पंजीकृत / अद्यतन करा लें जिसके पास उनके डीमैट खाते का रखरखाव किया जाता है।

. डीमैट स्वरूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे लामांश अपने बैंक खातें में सीधे प्राप्त करने के लिए डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट्स के जरिए और कंपनी के रजिस्ट्रार तथ शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास निरस्त चैक के साथ अनुरोध भेजकर बैंक खाता अधिदेश अद्यतन करा लें।

जहां कहीं सदस्य भौतिक रूप में शेयर धारण कर रहे हैं, वे एफ-65, प्रथम तल, ओखल फेस 1, ओखला औद्योगिक एसटेट, नई दिल्ली—110020 के पते पर कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को विधिवत भरा हुआ आईएसआर-1 प्रस्तुत करके अपने बैंक विवरण अद्यतन करा सकते हैं। शेयरधारक जिन्होंने अपने बैंक खाता विवरण अद्यतन नहीं कराए हैं, लाभांश वारंट / डिमांड ड्राफ्ट / चैक उनके पंजीकृत पते पर भेज दिए जाएंगे अथवा समय पर लाभांश प्राप्त करने के लिए वे इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम (ईसीएस) के लिए विकल्प का अनरोध कर सकते हैं।

. कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर वार्षिक आम बैठक के उददेश्य के लिए और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अंतिम लाभांश, यदि घोषित किया जाता है, के लिए सदस्यों की पात्रता के निर्धारण के लिए रविवार, 10 सितंबर, 2023 से शनिवार, 16 सितंबर, 2023 तक (दोनों दिवस

ई—वोटिंग पोर्टल बुधवार, 13 सितंबर, 2023 (प्रातः 9.00 बजे) से शुक्रवार, 15 सितंबर, 2023 (सायं 5.00 बजे) तक मतदान के लिए खुला रहेगा। इस अवधि के दौरान, कंपनी के सदस्य, जो कट ऑफ तिथि शनिवार, 9 सितंबर, 2023 को भौतिक रूप में अथवा डीमैटीरियलाइज़्ड रूप में शेयर धारण कर रहे हैं, मतदान के लिए हकदार होंगे।

.36वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना शेयरधारकों को लागू नियमानुसार उनके पंजीकृत ई—मेल आईडी पर बाद में प्रेषित कर दी जाएगी।

> कृते जय भारत मारूति लिमिटेड हस्ता / रवि अरोडा कंपनी सचिव और अनुपालना अधिकारी

तिथि : 21 अगस्त, 2023 थान : गुरूग्राम

कब्चा सूचना (अचल संपत्ति हेत्)

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियत असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धार 13(12) के साथ सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों क उपयोग करके कर्जदार **शलभ मल्होत्रा और परिणीता मल्होत्रा** को 23.12.2019 की सूचना में वर्ण के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLKUN00422061 की राशि रू.54,88,662 /- (रुपए चौवन लाख अ<mark>ञ्चासी हजार छ सौ बासठ मात्र)</mark> और 20.12.2019 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी। भ्रनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्तद्वारा कर्जदार और सर्व सामान जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप धारा (4) वे साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप अधिकारों का कार्यान्वयन करके **17.08.2023** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है वेशोषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एततदारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लि प्रावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा **राशि रू.54.88.662 /- (रुपए चौवन ला**र अञ्चासी हजार छ सौ बासठ मात्र) 20.12.2019 के अनसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबल हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा ।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्ग संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

स्वतंत्र मंजिल नं.डबल्युएफ-85/ डीयुपी जिसका सुपर एरिया लगभग 171.86 स्के.मी. (1850 स्के फूट), वॉटर साइड फ्लोर नामक योजना के तहत निर्मित इमारत की चौथी मंजिल पर, टीडीआई लेक ग्रेव सिटी में , कुंडली में स्थित, सोनीपत-131028, हरियाणा दिनांक:17.08.2023

पंजी कार्यालय :--

प्राधिकत अधिकार्र इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

मही

यूरो एशिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड सीआईएन : L51909DL1981PLC012621

· प्लॉट नंबर 3-ए, प्रथम तल, ब्लॉक-एक्स, लोहा मंडी, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली साउथ वेस्ट - 1100128

कार्पोरेट कार्यालय :- प्लॉट नंबर बी-103, द्वितीय तल, साज्ध सिटी ।, गुरूप्राम-122001, हरियाणा वेबसाइट : www.euroasiaexportsltd.com, ई-मेल : info@euroasiaexportsltd.com शेयरधारकों को सूचना नदद्वारा सुचना दी जाती है कि कम्पनी की 42वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) बृहस्पतिवार

14 सितम्बर, 2023 को अप. 01.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेन्स ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल

साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से एजीएम की सूचना, जो एजीएम के आयोजन के संबंध में प्रसारित की जा रही है, सूचीबद्ध व्यवसाय के निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी। अधिनियम के साथ पठित तदधीन विरचित नियमों के प्रावधानों तथा कार्पोरेट मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी जनरल सर्कुल नंबर 10/2022 दिनांकित 28 दिसम्बर, 2022 और समय समय पर जारी अन्य सर्कुलर्स तथा सेबी द्वारा जारी सर्कुलर नंबर सेबी/एचओ/ सीएफडी / पीओडी-2 / पी / सीआईआर / 2023 / 4 दिनांकित 05 जनवरी, 2023 ("सर्कुलर्स") के अनुसार, कम्पनीज को 30 सितम्बर, 2023 तक वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) का आयोजन वीसी अथवा ओएवीएम के माध्यम से किसी एक स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना करने की अनुमति दी गई है। कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम"), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 ("सेबी सूचीयन विनियमावली") के प्रासंगिक प्रावधानों और इन उपरोक्त एमसीए सर्कुलर्स के अनुपालन में, कम्पनी की एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है तथा सदस्यगण आगामी

का पंजीकत कार्यालय बैठक का स्थान माना जाएगा। उपरोक्त एमसीए सर्कुलर्स तथा सेबी सर्कुलर के अनुसार एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट वि.व. 2022–23 सहित केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा उन सदस्यों को भेजी जा रही है जिनका ई-मेल पता कम्पनी/डिपॉजिटरीज के पास पंजीकृत है। सदस्यगण नोट करें कि एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट वि.व. 2022-23 कम्पनी की वेबसाइट <u>www.euroasiaexportsltd.com</u> तथा स्टॉक एक्सचेंज नामतः बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट <u>www.bseindia.com</u> पर भी उपलब्ध होगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग ले रहे सदस्यों की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत गणपूर्ति की गणना के प्रयोजन हेतु की जाएगी।

एजीएम में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं/भाग ले सकते हैं। कम्पनी

कम्पनी अपने सभी सदस्यों को एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध सभी प्रस्तावों पर उनका वोट डालने के लिए रिमोट ई—वोटिंग सुविधा ("रिमोट ई—वोटिंग") उपलब्ध करवा रही है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी एजीएम के दौरान ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोटिंग की सुविधा ("ई–वोटिंग") उपलब्ध करवा रही है। एजीएम की सूचना में रिमोट ई–वोटिंग /ई–वोटिंग हेतु विस्तत प्रक्रिया दी गई है।

यदि आपकी ई–मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी के पास पहले से पंजीकृत है, ई–वोटिंग हेतु लॉगइन विवरण आपके पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजा जा रहा है। यदि आपने अपना ई-मेल पता कम्पनी / डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं करवाया है, कृपया वार्षिक रिपोर्ट तथा ई-वोटिंग हेतु लॉगइन विवरण प्राप्त करने के लिए अपना ई-मेल पता

> नंबर तथा पुरा पता : ख. शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन प्रति (फ्रंट और बैक) तथा ग. पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट (डीपी) से सम्पर्क करें तथा अपने

> निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन प्रति ई-मेल द्वारा रजिस्ट्रार ऐंड शेयर

क. शेयरधारक के नाम के उल्लेख युक्त हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र, फोलियो

ट्रांसफर एजेन्ट / कम्पनी को info@skylinerta.com पर भेजें

डीमैट खाते में आपके डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ई-मेल पता पंजीकृत करें। निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

वास्ते यूरो एशिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड

कम्पनी सचिव

हस्ताः 🖊

श्रुति चौंघरी

# हर-हरमहादेवके जयकारों से गूंजते रहे शिवालय

मंदिरों के बाहर दोपहर तक लगी रही लाइन, देर रात तक मंदिरों में पहुंचे श्रद्धालु, श्रद्धालुओं ने की सुख समृद्धि की कामना



**मराढाबाद।** सावन के सातवें सोमवार से गुंजायमान रहे। तड़के से ही पहुंचे कांवड़ के बेड़ों और श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। सुबह कुछ देर के लिए भीड़ कम हुई मगर नौ बजे से बाद से भी श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई।

चौरासी घंटा मंदिर के पुजारी विष्णु दत्त शर्मा ने बताया उन्हें मंदिर तड़के तीन बजे खोलकर साढ़े तीन बजे से जलाभिषेक आरंभ करा दिया। तब तक बड़ी संख्या में डाक कांवड़ों के साथ अन्य श्रद्धालु भी पहुंच गए। आठ बजे तक भीड़ बनी रही। इसके बाद नौ बजे से पुनः भीड़ आने लगी। इसका दोपहर तक आना जारी रहा। इस बार डाक कांवड़ लाने वालों में पुरुषों के साथ महिलाओं की संख्या भी काफी रही। सायं मंदिर को फुलों और बिजली की



सावन के सातवें सोमवार को झारखंडी मंदिर में जलाभिषेक करते श्रद्धाल्।

झालरों से सजाया गया। बेडों के साथ आए वाहनों को थाना नागफनी और दीवान के बाजार के चौराहे पर रोक दिया गया।बाबा झारखंडी मंदिर के महंत भोले नाथ ने बताया कि उनके मंदिर पर भी देर रात से श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया। यहां लगभग साढ़े बजे से

## भजन-कीर्तन से गूंजते रहे शिवालय

मरादाबाद। आज सातवें सोमवार को गंगा मंदिर किसरौल, मनोकामना श्री हुनुमान मंदिर, माता मंदिर लाइनपार, ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर, दुर्गा भवन मंदिर बुधबाजार, गीता ज्ञान मंदिर कोठीवाल नगर, दुर्गा मंदिर कोर्ट रोड, छोटा शिव मंदिर खुशहालपुर और सीताराम मंदिर गुजराती मोहल्ले सहित शहर अनेक शिवालयों में महिलाओं ने सायं कीर्तन कर शिव-पार्वती की महिमा का गुणगान किया। महिलाओं ने भिवत से सराबोर होकर नृत्य कर माहौल शिवमय कर दिया।



नया मरादाबाद महाकालेश्वर धाम मंदिर में जलाभिषेक करने पहुंचे श्रद्धालु।

## शिविर लगाकर की कांवड़ियों की सेवा

**मुरादाबाद।** श्रद्धालुओं की सेवा के लिए र्दिल्ली से रामपुर रोड तक शिविर लगे रहे। फव्वारा चौक से चौदरपुर और उससे आगे तक शिविर सर्जे रहे। इनमें श्रद्धालुओं के स्वरुचि भोजन परोसने की होंड रही। शिविरों में कांवडियों के स्नान, कांवड़ रखने के लिए सुरक्षित स्थान, विश्राम आदि की भी व्यवस्था रही। हालांकि आज विश्राम करने वालों की संख्या नगण्य रही।

## भगवान पशुपति नाथ की महाआरती की

मरादाबाद। हिंद मंडल किसरौल ने सावन के सातवें सोमवार को चौरासी घंटा स्थित भगवान पशुपति नाथ की प्रतिमा के समक्ष महाआरती की। महाआरती कर देश एवं शहर की सुख-समद्धि की कामना की। मख्य अतिथि थाना नागफनी के अध्यक्ष तेजवीर सिंह रहे। आरती में सर्वेश त्रिवेदी, सत्यदेव शर्मा, सुधीर शर्मा, अरविंद अग्रवाल, राजेंद्र गुप्ता, सुरेश चंद्र,आलोक रहे।

## शहर 🔠 🕏

## रुद्राभिषेक कर किया फलों का वितरण

मरादाबाद । सावन के सोमवार को सोमनाथ महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक किया गया। नाग पंचमी के उपलक्ष्य में नाग देव की स्थापना कर पूजन भी किया गया। पूजन पंडित गिरीश तिवारी ने कराया। मंदिर के पास स्थित फर्मी के कर्मचारियों सहित अन्य श्रद्धालुओं को फलों का वितरण किया गया। विशाल अग्रवाल, राजू अग्रवाल, अनुराग अग्रवाल, अजय गोयल,पराग कोठीवाल,पवन कोठीवाल रहे



ताडी खाना चौक स्थित भगवान नागेश्वर के मंदिर में रुद्राभिषेक करते श्रद्धाल।

## नागेश्वर मंदिर में हुआ रुद्राभिषेक, भंडारा

मरादाबाद। ताडीखाना चौक स्थित श्री सिद्ध नागेश्वर मंदिर में नाग पंचमी पर भगवान भोले नाथ का रुद्राभिषेक किया गया। इसके बाद महिलाओं ने कीर्तन किया। अंत में आरती के बाद भंडारा किया गया। उधर छडियों के मेले में आए श्रद्धालुओं ने भगवान नागेश्वर के मंदिर में दर्शन किये।

### 'हैप्पीनेस वेव' में छात्रों ने सीखा खुश रहना

मरादाबाद। सीएल गुप्ता स्कूल ऑफ ऑप्टोमेट्री के तत्वावधान में हाहैप्पीनेस वेवह्न शीर्षक से सेमिनार का आयोजन किया गया। जिसमें छात्रों को खुश रहने के तरीके सिखाए गए। रोहित अग्रवाल मुख्य वक्ता रहे । स्कूल ऑफ ऑप्टोमेट्री के प्रिंसिपल डॉ . प्रदीप अग्रवाल ने विषय की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। संचालन प्रशासनिक अधिकारी गरिमा सिंह ने किया। सूरज चौरसिया, महेंद्र सिंह आदि रहे।



## 25 को होगी रेलवे में डीआरयूसीसी की बैठक

**मुरादाबाद ।** मंडल रेल उपयोगकर्ता सलाहकार समिति की बैठक( डीआरयुसीसी 25 अगस्त को होगी। डीआरयुसीसी के सदस्य बैठक में रेल प्रशासन के सामने यात्रियों की परेशानियों के बिन्दु उठाएंगे। मुरादाबाद में होने वाली बैठक की तैयारियां शुरु हो गई है। बैठक में मंडल के 29 सदस्य हिस्सा लेंगे। रेलवे के अनुसार डीआरयूसीसी की बैठक मुरादाबाद में होगी।

## आईएफटीएम में ली नशे से दूर रहने की शपथ

मरादाबाद। सोमवार को आईएफटीएम विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की डकाई द्वारा नशा मक्त भारत अभियान चलाया गया। विश्वविद्यालय के छात्रों. शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने नशे से दूर रहने की शपथ ली। डॉ .अशोक कमार ने शपथ दिलाई। विश्वविद्यालय के कलसचिव प्रो.संजीव अग्रवाल, प्रों.बीके सिंह, प्रों.अरुण कुमार मिश्रा, डॉ.अतनु नाग, डॉ.रमेश पाल रहे।



श्री शिव मंदिर में राम कथा से पूर्व निकाली गई कलश यात्रा में भाग लेते श्रद्धालु।

## राम कथा जीवन में करती सदाचार का समावेश

मरादाबाद। हरे कष्णा चौक नवीन नगर स्थित श्री शिव मंदिर में श्री राम कथा क आरंभ किया गर्या। शुभारंभ कलश यात्रा से किया गया। आचार्यगण ने पुजन कर कलश यात्रा शुरू की कथा व्यास धीरशांत दास ने कहा भगवान राम कथा हमारे जीवन सदाचार, मर्यादा, संस्कार एवं माता पिता की सेवा के गणों का समावेश



सोमवार को बारिश के बाद गड्डे में फंसी कार।

## रामगंगा विहार में गहूं में धंसी कार

मरादाबाद। सीवर लाइन खदाई ने रामगंगा विहार के लोगों को परेशानी में डाल रखा है। सोमवार को हुई बारिश के बाद गड्ढों में पानी भर गया। कुछ स्थानों पर सड़क भी धंस गई। रामगंगा विहार में गड्ढे में एक कार धंस गई। कार मालिक ने गाड़ी को निकालने की हरसंभव कोशिश की, मगर सफलता नहीं मिल सकी। इसके बाद किराए पर ट्रैक्टर को लाया गया।

# आस्था और विश्वास के साथ मनाई नाग पंचमी

**मरादाबाद।** नाग पंचमी का पर्व पूरी आस्था और विश्वास के साथ मनाया गया। श्रद्धालओं ने नाग देवता की पजा-अर्चना की। घरों पर उनकी स्थापना की और दुध पिला शांति की कामना की। सुबह से ही लोगों ने स्नान आदि कर घरों के दरवाजों पर गाय के गोबर से लिपाई की और उस पर जोड़े के साथ नागदेव की स्थापना की। उन्होंने नाग देव के मठों पर कच्चा दूध, हल्दी, कोयला आदि चढाकर नाग देव का आशीर्वाद लिया।

थाना नागफनी के पीछे और बंगला



नागफनी स्थित नागपंचमी मठ पर दूध चढ़ाते श्रद्धालु। • हिन्दुस्तान

लाइनपार चिडिया टोला, खशहालपुर, केजीके कालेज, कटघर चामुंडा मंदिर, पीतल नगरी और दसवां घाट स्थित

दुध पिलाया गया। जिन क्षेत्रों में मठ नहीं हैं उन क्षेत्रवासियों ने शिवालयों में जाकर शिवलिंग पर ही नाग देवता को दूध

कालसर्प दोष मुक्ति को किया पुजन-रुद्राभिषेक: मान्यता है कि नाग पँचमी पर नागदेवता की पूजा करने से कालसर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। इसके लिए विशेष पजन के साथ रुद्राभिषेक भी किया जाता है। इसलिए सबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं ने कालसर्प दोष से मुक्ति के लिए पूजन और अन्य अनुष्ठान किये जाते रहे। हाइडिल कालोनी स्थित शिव मंदिर में पुजारी संतोष बड़ोला ने पूजन कराया। उन्होंने बताया कि आज के दिन सामान्य रूप से दुध, नाग-नागिन का जोड़े सहित पूजन आदि करने से भी कालसर्प दोष दूर हो जाता है। इसी क्रम में अन्य मंदिरों



## ताड़ीखाने पर लगा छडियों का मेला

मुरादाबाद। नाग पंचमी के साथ की जाहरवीर बाबा का छडियों का मेला भी शुरू हो गया। आज पहले दिन ताड़ीखाना चौक से कोर्ट रोड और

श्रद्धालुओं ने मेले में पहुंचकर बाबा जाहरवीर और उनके निशान(झंडे) की पूजा-अर्चना की। छड़ी से बच्चों से लेकर बडों तक ने उतारा कराया। बच्चों

# अपराधियों को कड़ी सजा शादी पर दिव्यांग दंपति को मिलेंगे 35 हजार दिलवाएं : जिलाधिकारी

सीआईर्न : L34102UP1988PLC010141 पंजी. कार्यालय : ए-5, यूपीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एस्टेट, भारतीयग्राम, गजरौला, जिला– अमरोहा, यूपी. – 244223 फोन : **09837923893**, फैक्स : (05924) 252348, ईमेल आईडी : insilco2@gmail.com, वेबसाइट : www.insilcoindia.com

रुपबुंगा था जारा 6 1% कामान्य बैठक (एजीएम) कम्पनी अधिनियम, 2013 के समी लागू प्रावधानों और तदधीन विरवित नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित और प्रकटीकरण अपेक्षाए) विनियमावली, 2015 के साथ पठित कापीरेट मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 8 अप्रैल, 2020 के जनरल सर्कृलर नंबर 14/2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, दिनांक 5 मई, 2020 के 20/2020, दिनांक 13 जनवरी, 2021 के 02/2021, दिनांक 14 दिसम्बर 2021 के

रपार्थ ७ नड्ड, 2020 थ 20/2020, [पार्थ 13 जानपर, 2021 थ 02/2021, [पर्याप्य 14 प्रसासर 2021 थ 21/2021, विनांक 5 मई 2023 के 02/2022 तथा दिनांक 28 दिसम्बर को जारी अंतिम सर्कुलर नंबर 10/2022 ('प्पसीए सर्जुलर्स') और भारतीय प्रतिमूति एवं विनिमय बोर्ड ('सेबी') के विनांक 12 मई 2020 के अनुपार्वन में उनके सर्कुलर नंबर सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी 1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 (जिसकी वैधता सेबी

संकुलर नंबर संबा / एवंजा / साएफंडा / साएमंडा / साजाईआर / पा / 2020 / 79 (जिसको वचता संवां ने अपने संकुलर नंबर संबी / एवंजो / सीएफंडी / सीएमंडी 2 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 को दीनंच 15 जनवरी 2021 के माध्यम से 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया था) तथा दिनांक 5 जनवरी 2023 के सर्कुलर ('संबी सर्कुलर्स') नंबर संबी / एवंजो / सीजारडी / पीजोडी—2 / पी / सीजाईआर / 2023 /4 और कोई अन्य लागू, सर्कुलर्स जो इस संबंध में जारी किए गये हों और कंपनी को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल सावनों (ओएपरीएम) की सुरिकाओं के माध्यम से जनकी वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के आयोजन के लिए स्वीकृति प्रदान करती है, ताकि नोटिस में एजीएम निर्दिष्ट व्यवसाविक लेनदेन निष्पादित वियो जा सकें।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें नोटिस, बोर्ड की रिपोर्ट, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, लेखा–परीक्षण किए गये वित्तीय विवरण और वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए अन्य आवश्यक दस्तावेज

ासित, लखा—पराक्षण किए गय ।वताय ।ववरण आर ।तताय वन प्रश्चिट-23 क ।तए अन्य आवश्यक दस्तावज आमिल हैं उन के कंपनी के उन सदस्यों के केवल ई—मेल अर्थात इतेक्ट्रॉनिक रूप द्वारा मेज जाएगा जिन सदस्यों के ईमेल पते कंपनी के रिजस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के साथ पंजीकृत किए गये हैं, और जिनके ई—मेल कंपनी के साथ या उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिमागियों ("विपंजिटरी") के साथ प्रसीए के अनुसार पंजीकृत किए गये हैं। कंपनी अपने सदस्यों को इतेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली ("रिमोट ई—वोटिंग") का उपयोग करके, वीसी/अंबीएएम सुविधा के मध्यम से एजीएम में माग लेने के लिए दुरस्थ वोट नेशाल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड के माध्यम से एजीएम के दौरान ई—वोटिंग के लिए दुरस्थ वोट

नवानत तिपयारिका छत्राजिराज (सांतर्फ के मान्यन से र्जार्ज के प्रार्थ) इन्यार के क्षिप्र रूप्तर वार् डालने की सुविधा प्रदान करेगी और एजीएम के दौरान रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ("एपस्डीएल") माध्यम से की जाएगी। एजीएम में शामिल होने के निर्देश और एजीएम के दौरान रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में भाग लेने या ई—वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट डालने के तरीके एजीएम के नोटिस में प्रदान किए गए

हैं। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के प्रयोजन के लिए सम्मिलित किया जाएगा वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की सूचना और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.insilcoindia.com और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट

www.bseindia.com और एनएसडीएल की वेबसाइट https%//www.evoting.nsdl.com पर उपलब

ु डीमैटरियलाइज्ड मोड अर्थात अप्रत्यक्षीकृत रूप में, भौतिक रूप में शेयरधारक सदस्यों और जिन सदस्यों अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किये हैं, उनके लिए दूरस्थ रूप से वोट डालने का तरीका 35वीं एजीएम व

ातित प्रयागिक्या गया है। जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप में श्रेयर रखे हैं, जिनके ईमेल पते कंपनी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, वे सदस्य अपना नाम, फोलियो नंबर, पूरा पता, पैन कार्ड सहित पंजीकृत किये जाने वाले ईमेल पते का उल्लेख

करते हुए या पैन कार्ड के स्थान पर कोई भी दस्तावेज (जिसे झाइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, आधार कार्ड) की स्क्रैन की गई स्व–सत्यापित प्रति के साथ, कंपनी के ईमेल पते insilco2@gmail.com पर ईमेल करें। जिन सदस्यों के पास डीमेट फॉर्म में शेयर रखे हैं वे सदस्य अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के

साथ अपना इंमेल पता अपडेट कर सकते हैं। यदि कंपनी /आरटीए के पास पहले से पंजीकृत ई-नीस आईडी में कोई बदलाव होता है, तो सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे मौतिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में कंपनी के ईमेल पते insilco2@gmail.com और इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध

विभागितरी प्रतिमानी को तुरंत ऐसे बदलाव की सूचना दें। कंपानी के वे सदस्य जिनके पास डीमटेरियलाइण्ड अर्थात अप्रत्यक्षीकृत रूप में शेयर रखे गये हैं, वे **अंति**म

कपना क व सदस्य 10 निर्माद थारा डान्टारथताइष्ट अधारा अप्रधारावाइर राज्य में साथ रखा यह ह. व आदम तिथि यानी बुषवार, 13 सितंबर 2023 को मीतिक रूप में या रिमोट ई-वोटिंग द्वारा ओएवीएम और एजीएम के माध्यम से वोट डालने या वीसीओएवीएम के माध्यम से एजीएम की बैठक में भाग लेने के हकदार होंगे। रिमोट ई-वोटिंग सुक्रवार, 15 सितंबर 2023 को प्रांतः 900 बजे (मारतीय समयानुसार) शुरू होंगी और मंगलवार, 19 सितंबर 2023 को सांयकाल 500 बजे (मारतीय समयानुसार) पर समार्ग्त होंगी। उसके बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल अक्षम कर दिया जाएगा। एक बार जब सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से किसी प्रस्ताव पर वोट डाल देता है, तब उसे बाद में उसमें बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन

सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल दिया है, वे भी एजीएम में भाग ले तो सकते हैं, लेकिन दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

चूक सदस्या को भातिक उपारधात समाप्त कर दो गई है, इसलिए प्राक्ती की नियुक्त की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए, एजीएम के लिए सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। हालाँकि, निकाय कॉर्पोरेट वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (''ई–वोटिंग') के माध्यम से अपने वोट डालने के लिए अधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने के हकदार होंगे। कॉर्पोरेट निकाय जिनके अधिकृत प्रतिनिधि वीसीध्ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने के इच्छुक हैं, उन्से अनुरोध किया जाता है कि वे कंपनी को insilco2@gmail.com पर अपने प्रतिनिधि को बैठक में

राज तो और उनकी और से वीट डालने के लिए अधिकृत करने वाले बोर्ड के प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति insilco2@gmail.com पर एजीएम शुक्त होने से कम से कम 48 घंटे पहले ई—वोटिंग के माध्यम से भेज

भिसर्स एपीके एंड एसोसिएट्स के प्रोपराइटर, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी श्री अजय कुमार प्रजापति को ई–वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया

जो सदस्य एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं या प्रश्न पछना चाहते हैं, वे अपने पंजीकत

इंभिल पते से अपना नाम, डीपी आईडी और ग्राहक आईडी नंबर/फोलियो नंबर और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए कंपनी के ईंभेल पते पर अपना अनुरोध एजीएम शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले insilco2@gmail.com भेजकर ख्यं को पंजीकृत और संपर्क कर सकते हैं।

manozegnian-mount अव अन्य का कार्युक्त कार एकर की जानकारी जानना चाहते हैं , उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने पंजीकृत ईमेल पते अपना नाम, डीपी आईडी और ग्राहक आईडी नंबर∕फोलियो

नंबर और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए कंपनी के ईमेल पते insilco2@gmail-com पर बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी को ईमेल लिखकर / भेजें ।

उपरोक्त जानकारियां एमसीए और सेबी के लागू सर्कुलर के अनुपालन में कंपनी के सभी शेयरधारकों की

चूंकि सदस्यों की भौतिक उपस्थिति समाप्त कर दी गई है, इसलिए प्रॉक्सी की नियक्ति की कोई आवश्यव

जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि पैरवी कर अपराधियों को कड़ी सजा दिलवाई जाए। सरकारी अधिवक्ता इस पर विशेष ध्यान दें। गवाह होस्टाइल नहीं होने चाहिए। महिला संबंधी अपराधों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई।

जिलाधिकारी ने सभी तरह के वादों की समीक्षा की। उन्होंने शासकीय

(दिनांक 25-06-2021 के प्रभाव के तहत स्वैच्छिक परिसमापन)

इनसिल्को लिमिटेड

तहवारा सचना दी जाती है कि

नोटिस में प्रदान किया गया है।

अधिवक्ताओं से कहा कि वादों की प्रभावी पैरवी करते हुए अपराधियों को कड़ी सजा दिलाएं।

जिलाधिकारी ने कहा कि दायर वादों का डिस्पोजल भी बढ़ाएं और सजा का प्रतिशत भी बढाएं। समन तामीला पर विशेष ध्यान दें। निर्णित वादों के सापेक्ष सजा कम होने पर जिलाधिकारी ने असंतोष व्यक्त

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग से संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का लाभ दिव्यांगों को दिया जाएगा। इसके तहत युवक के दिव्यांग होने की दशा में 15,000 रुपये व युवती के दिव्यांग होने की दशा में 20,000 रुपये तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में 35,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। परस्कार पाने के लिए आवेदन दिव्यांगजन वेबसाइट पर करना होगा।

द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत पात्रता हेतु शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो। दंपत्ति में कोई आयकर दाता न हो। सीएमओ द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता ४० प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। योजनांतर्गत ऐसे दिव्यांग दंपत्ति पात्र होगें जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं चालु वित्तीय वर्ष में हुआ

#### कुत्रिम अंग के लिए करें आवेदन मुरादाबाद । जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी सिद्धार्थ ने बताया कि

दिव्यांगजनों को निशल्क कत्रिम अंग वितरण के लिए चिहित करने के लिए लगाए गए शिविरों में जो चिँहित नहीं हुए थे वह अपना आवेदन दिव्यांगजन वेबसाइट पर कराकर उनके कार्यालय में हार्डे कापी जमा करा दें।

हो। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी सिद्धार्थ ने बताया कि दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दिव्यांग दंपत्ति चाल वित्तीय वर्ष एवं गत वित्तीय वर्ष में संपन्न शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु आ ँ ना ला। इना http//divyangjan.upsdc.g ov.in पर आवेदन कर सकते है। ऑनलाइन फार्म भरते समय आवेदक दंपत्ति को दिव्यांगता प्रदर्शित संयक्त नवीनतम फोटो, शादी का प्रमाण पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र आदि साइट







दीनदयाल नगर में सोमवार को बारिश से गीली हुई सीवर खुदाई की मिट्टी में फिसलकर गिरी स्कूटी सवार युवतियां और उनकी मदद करता युवक।

# बारिश से साई मंदिर रोड पर फिसलन, कई गिरे

मरादाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। सीवर लाइन खदाई लोगों के लिए आफत बनी हुई है। सोमवार को बारिश से साई मंदिर रोड पर हुई फिसलन से एक के बाद एक कई बाइक सवार गिरकर चोटिल होते रहे। स्कूटी सवार स्कूली छात्र-छात्राओं के अलावा दो युवतियां भी गिरकर चोटिल हो गई। स्थानीय लोगों के अलावा दुकानदारों में जल निगम के खिलाफ जबरदस्त

बारिश के समय सीवर लाइन की खदाई का काम रोक देना चाहिए। यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसके जिम्मेदार जल निगम के अधिकारी होंगे। दरसल साई मंदिर रोड पर सीवर लाइन डालने का काम चल रहा है। मधुबनी से मर्यादा अस्पताल तक लाइन डालने के बाद मिट्टी डाल दी गई। सोमवार को हुई बारिश से सड़क पर हालात बद से बदतर हो गए। फिसलन से एक के

## मंदिर दर्शन करने जा रहे तीन लोग चोटिल

**मरादाबाद।** फिसलन से गिरकर चोटिल होने वालों में दीनदयाल नगर नगर निवासी विजय गुप्ता, शैलेंद्र कुमार व काव्या सिंह हैं। तीनों लोग दोपहिया वाहन से साई मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे थे। इसी बीच उनकी स्कूटी फिसल गई। जिससे तीनो जख्मी हो गए।

18 से 45 साल के युवाओं में

कांटेक्ट लेंस लगाने का रुझान

तक की युवतियां सुंदरता के

बढा है। खासकर 20 से 28 साल

दृष्टिकोण से कांटेक्ट लेंस लगाने

को अधिक प्राथमिकता दे रही हैं।

बाद एक कई बाइक सवार महिला-पुरुष गिरकर चोटिल हो गए। आसपास रहने वाले मुदित कुमार, अनुज गुप्ता, संदीप गुप्ता, रेहान का कहना है कि प्रभाव से रोक देना चाहिए।

जानकारी के बाद भी संबंधित विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बारिश में काम को तत्काल

आक्रोश था। उनका कहना था कि

## दिवस विशेष । नजर कमजोर होने पर आंखों में कांटेक्ट लेंस लगाने वालों की संख्या में मुरादाबाद में एक लाख तक पहुंची

# कांटेक्ट लेंस से आत्मविश्वास बढ़ा रहे एक लाख मुरादाबादी

मुरादाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। नजर कमजोर होने पर चश्मा लगाने के बजाय कांटेक्ट लेंस को अपनाने वाले लोगों की संख्या मुरादाबाद में बढ़ रही है। आंखों की पुतली पर लेंस चिपकाकर अपना हौसला, आत्मविश्वास अधिक महसूस करने वालों की संख्या मुरादाबाद में अब एक लाख तक पहुंच गई है। मरादाबाद में आंखों की कमजोरी से पीड़ित लोगों की संख्या 25 फीसदी के पार दर्ज की जा रही है। चिकित्सकों के मताबिक इनमें से पांच फीसदी लोग अब कांटेक्ट लेंस को अपना रहे हैं। आंखों में यह लेंस लगाने वालों में सबसे अधिक संख्या युवतियों की है जबकि,

कांटेक्ट लेंस लगाने वालों में सबसे ज्यादा संख्या युवतियों की ■ खिलाड़ी भी बड़ी संख्या में प्रयोग कर रहे हैं

संख्या

फीसदी लोग अब कांटेक्ट

के अनुसार

फील्ड विजन अधिक मिलने से कई खिलाडी इसे लगाना पसंद कर रहे हैं । -डॉ अतुल नाथ, नेत्ररोग विशेषज्ञ स्रोते समय उतार दें कांटेक्ट लेंस

चिकित्सकों के मुताबिक कांटेक्ट लेंस लगाने वालों को जरूरी सावधानियों पर ध्यान देना होगा। डॉ .अतुल नाथ ने बताया कि रात को सोते समय कांटेक्ट लेंस उतार देना जरूरी है। इससे आंखों को ऑक्सीजन मिल सकेगी। डॉ. स्मिता अग्रवाल ने बताया कि आई पलू आदि संक्रमण होने के समय कांटेक्ट लेंस लगार्ने से बचना होगा।



मुरादाबाद में सर्जरी के माध्यम से आंख में कांटेक्ट लेंस प्रत्यारोपण भी शुरू हो गया है। डॉ.स्मिता अग्रवाल ने बताया कि यह पानी की तरह पतली झिल्ली वाला विशेष लेंस होगा। इस सर्जरी का

खर्च ७० हजार से एक लाख तक पड़ेगा। – डॉ. रिमता अग्रवाल, अध्यक्ष, मुरादाबाद ऑफ्थेलिमक सोसाइटी

शादी की उम्र वाली लडिकयां चश्मे का नंबर कम होने पर भी कांटेक्ट लेंस लगाने का रूझान ज्यादा दिखा रही हैं। आंख की काली पुतली की आकृति में गडबडी मिलने पर ऐसे मरीजों को चिकित्सकीय दृष्टिकोण से कांटेक्ट लेंस लगाने को कहा जा रहा है। सुंदरता की दृष्टि से जीरो नंबर के रंगीन कांटेक्ट लेंस भी लगाए जा रहे हैं।

#### धनराशि जारी कर दी है। इन गांवों को ओडीएफ करने के लिए यहां कूड़ संयंत्र स्थापित करने के साथ ही अन्य कार्य कराए जाएंगे। जिले के 306 राजस्व गांवों को दे

गांवों को मिला 27

मुरादाबाद। स्वच्छ भारत मिशन के

ओडीएफ प्लस के तहत चयनित 306

ग्राम पंचायतों में से शासन ने 226 ग्राम

पंचायतों के लिए 27 करोड़ की

करोड्काइनाम

महीने पहले ओडीएफ प्लस की उत्कृष्ट श्रेणी (मॉडल) गांव बनाए जाने के लिए चिह्नित किया गया था। इन गांवी में ओडीएफ स्थायित्व, ठोस और तरल अपशिष्ट, प्लास्टिक, गोबर इत्यादि के प्रबंधन के लिए निर्मित शौचालयों क उपयोग तय किया जाएगा। जिला पंचायत राज अधिकारी अभय कुमार ने बताया कि 226 ग्राम पंचायत मे ओडीएफ प्लस के कार्य कराने के लिए 27 करोड़ पंचायत राज विभाग के खाते में पैसा भिजवा दिया है।

कृते इनसिल्को लिमिटेड हस्ताक्षर /-

खिलाड़ी इस मामले में दूसरे नंबर पर आ रहे हैं।

कांटेक्ट लैंस फीसदी के पार

लेंस को अपना रहे. चिकित्सकों

दर्ज की आंखों की कमजोरी से पीड़ित लोगो की

शादी की उम्र वाली लड़कियों में रूझान